



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215547
CG-DL-E-18012020-215547

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]
No.208]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

का.आ. 218(अ).— सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, जहां एस.ओ. 2932 (अ) दिनांक 9 अगस्त 2019, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत जारी 1956 (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को अधिग्रहित करने के लिए निर्माण (चौड़ीकरण / छः लेनिंग, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 48 (ओल्ड एनएच संख्या: 4) किलोमीटर 260 से किलोमीटर की दूरी पर 340 (दावणगेर - हावेरी सेक्शन) के राज्य के हावेरी जिले में कर्नाटक में

और जबकि उक्त अधिसूचना का पदार्थ "डेक्कन हेराल्ड" और "विजयवाण" दोनों दिनांकित समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है; उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3);

और जबकि आपत्तियाँ प्राप्त की गई हैं और सक्षम प्राधिकार द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने और उक्त अधिनियम की धारा 3 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित होगी, सभी एन्कम्बेन्स से मुक्त।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 48 (ओल्ड एनएच संख्या: 4: Km.260.000 से Km.340 (दावानगेर-हावेरी सेक्शन) तक भूमि के खिंचाव में NH4 के भीतर प्राप्त होने वाली या बिना संरचना के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण कर्नाटक राज्य में हावेरी के जिले में।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: हावेरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ब्यादगी				
	गांव का नाम: चतरा				
1	118	निजी	ड्राई	0.0101	हुलुगवलु (११८)
2	119	निजी	ड्राई	0.0101	मालदा शेकववा S/O बसवराज , मल्लाददा सुधा W/O बसवराज असदारा अजजी निंगववा (११९ / २)
3	119	निजी	ड्राई	0.0707	पोती निंगप्पा S/O गुडप्पा , पोती नागप्पा S/O गुडप्पा (११९ / ३)
4	124	निजी	ड्राई	0.0329	हावेरी येल्लप्पा S/O पक्कीरप्पा , हावेरी परसुराम S/O पक्कीरप्पा , हावेरी भरमप्पा S/O पक्कीरप्पा , हावेरी मंजुनाथ S/O पक्कीरप्पा (१२४ / १)
5	76	निजी	ड्राई	0.0737	कुरादान्नानवारा हनुमंथप्पा S/O पुट्टप्पा , अस पैर रतक (७६ अ / १ अ , १ बी)
6	76	निजी	ड्राई	0.0475	कुरुदंननवारा हनुमंथप्पा S/O पुट्टप्पा (७६ अ / २ अ)
7	76	निजी	ड्राई	0.0404	काकोला बसवराज S/O मल्लपा ,

					कुरादानानवारा हनुमंथप्पा S/O पुट्टप्पा (७६ / बी)
	गांव का नाम: गुंडेनाहोली				
8	30	निजी	ड्राई	0.068	शांथववा W/O करबासप्पा यत्नालली , गुंडप्पा S/O बसवणिपा यारवंननवरा , मालगोट्ट सुशीलववा W/O नीलपण , होनाप्पानवरा हनुमंथप्पा S/O गुंडप्पा , यल्लापुरा निंगप्पा S/O चिककपप , यल्लापुरा बसप्पा S/O चिककपप , यल्लापुरा गुंडप्पा S/O चिककपप , गुंडप्पा S/O बसवणिपा यारवंननवरा , करबासप्पा S/O बसवणिपा यारवंननवरा , करबासप्पा S/O बसवणिपा यारवंननवरा , यत्नालली वीरप्पा S/O थोटाप्पा (३० / १ , २ , ३ , ५ , ६ , ३अ , ३ब , ३क , ७)
9	31	निजी	ड्राई	0.0525	बर्की गौरम्मा W/O हनुमंथप्पा जादारा गुट्टेम्मा W/O शिवजयप्पा माडीवालारा यल्लम्मा W/O थिप्पे बर्की पुष्पवत W/O पक्कीरप्पा बर्की किराना पक्कीरप्पा बर्की अरुणकुमार पक्कीरप्पा गुडगुडा सुरेश S/O होलियप्पा कुंटे शंकरप्पा S/O हनमनथप्पा कुंटे शंकरप्पा S/O हनुमंथप्पा कुंटे रदयाबाई W/O मुरलीडरा कुंटे हनुमंथप्पा मुरलीडरा कुंटे श्रीनिवासा मुरलीडरा कुनाते अरविंद मुरलीडरा कुंटे विशणप्पा S/O हनुमंथप्पा रासिनकरा अम्बुजा W/O महीपतिराओ दामोदर सुनंदा W/O परशुराम सवाल सरोजा W/O वेंकटेश रंगदोला बलथाला W/O वसंथराओ कुंटे राजेंद्र रामकृष्णा जडवा सवित्र W/O सुरेंद्र मालङ्कारा विनोद W/O सुरेश कुट रमाकांता रामकृष्ण कुंटे विनाकायका रामकृष्ण कुंटे नागराथ्ना W/O गोपालराव कुंटे प्रशान्तः W/O गोपालराव कुंटे अरुणाकुरमा S/O गोपालराव कुंटे सुनीलकुमार S/O गोपालराव शिगवी सुरेश चन्नबसप्पा (३१ / १ अ १ब 1+2A/2, 1+2A/3, 1+2A/४ 1+2A/१अ 1+2A/१ब 1+2A/१क)

10	31	निजी	ड्राई	0.05	अपिनाकोप्पा S/O महादेवप्पा S/O थिराकाप्पा , अपिनाकोप्पा पक्कीरप्पा S/O थिराकाप्पा , अपिनाकोप्पा थिराकाप्पा S/O रामप्पा , अपिनाकोप्पा शिवनंदप्पा S/O रामप्पा , अपिनाकोप्पा पक्कीरप्पा S/O थिराकाप्पा , अपिनाकोप्पा थिराकाप्पा S/O रामप्पा , अपिनाकाप्पा शिवनंदप्पा S/O रामप्पा , कुंटे रामकृष्ण S/O दुरूगोजाप्पा , मोटगि मनोहर S/O शंकरप्पा , (३१ / २ , २ ,)
11	31	निजी	ड्राई	0.0998	डलवाई महादेवप्पा S/O संकप्पा , (३१ / ३)
12	31	निजी	ड्राई	0.0861	बर्की हनुमप्पा S/O निंगप्पा , बर्की भरमप्पा S/O होन्नप्पा , बर्की दुरगप्पा S/O होन्नप्पा , बर्की रामप्पा S/O होन्नप्पा , याठिनाहल्ली सदानंद S/O शिवप्पा , होन्नप्पा (३१ / ४अ , ४ब)
13	32	निजी	ड्राई	0.02	पुजारा शेकरप्पा S/O बसप्पा (३२ / २ + ३ स)
14	32	निजी	ड्राई	0.015	देविहासुरा शंकरप्पा S/O गुंडप्पा , गुंडप्पा S/O शंकरप्पा देविहासुरा , देविहासुरा संगीता W/O प्रकाश देविहासुरा कुसुमा D/O प्रकाश असदारा ताई संगीता , (३२ / ४ अ , ४ बी)
15	32	निजी	ड्राई	0.101	पुजारा शेकरप्पा S/O बसप्पा , ब्यादगी वतलाहल्ली शंकरप्पा S/O चन्नबसप्पा , ब्यादगी हालेशप्पा S/O गोडप्पा , याठिनाहल्ली शिवरुद्रप्पा S/O हेमनना , ब्यादगी हालेशप्पा S/O गोडप्पा , ब्यादगी ईश्वरप्पा गोंडप्पा (३२)
16	33	निजी	ड्राई	0.15	शिवनागववा W/O शेखापपा अंबेरी कुंता अशोका S/O लक्ष्मणराव कुंटे सुधाकरा S/O लक्ष्मणराव कुंटे सुरेश S/O लक्ष्मणराव कुंटे कृष्णामूर्ति S/O लक्ष्मणराव यत्नालली मंजुनाथ W/O शिवप्पा (३३ / २ अ , २ बी / १ , २ बी / २ , २ बी / ३ , २ बी / ४ , २)

17	34	निजी	ड्राई	0.015	याठिनाहल्ली सदानंद S/O शिवप्पा , याठिनाहल्ली राजशेखर S/O शिवप्पा , याठिनाहल्ली अनूसुयम्मा W/O शिवप्पा , (३४ / २ अ)
18	34	निजी	ड्राई	0.054	अस पैर रतक (३४ / ३)
गांव का नाम: कदामनाहल्ली					
19	39	निजी	ड्राई	0.0202	सन्निराप्पानवरा शिवनगौड़ा S/ O यल्लनागौड़ा , पतीला वीरबासानगोडा S/O महादेवगौड़ा , पाटिल हनमंथागोडा S/O शंबानगोडा , पतीला रामनगौड़ा S/O शंबानगोडा , पाटिल यल्लववा W/O शंबानगोडा , हंचीमने बसवण्णिपा S/O गुड्डप्पा , पतीला चन्नाबसनागौड़ा S/O निन्नानगौड़ा , हंचीमनी जाम्बुनाथा S/O गुंडप्पा , पतीला बसवनववा W/O हनुमंथप्पा , पतीला शिददनगोडा S/O हनुमंथागोडा , पतीला नागनगौड़ा S/O यल्लनागौड़ा , पैटला पुत्तानागौड़ा S/O यल्लनागौड़ा , पतीला प्रभु गोदा S/O यल्लनागौड़ा , पतीला निन्नानगौड़ा S/O यल्लनागौड़ा , पतीला शंकरगौड़ा S/O यल्लनागौड़ा , पतीला शिवनगौड़ा S/O निन्नानगौड़ा , पतीला शिवनगौड़ा S/O निन्नानगौड़ा , पतीला शिवनगौड़ा S/O निन्नानगौड़ा (३९ / 1+२ अ / १ , 1+२ अ / , 1+2A/2B, १+२अ/३, १+२ब, ३अ, ३अ, 1+2A/3, 1+2B, 2A, 3B, 3C, 3D,)
20	40	निजी	ड्राई	0.0707	गोयल सलिलकुमारा S/O गिरीशचंद (४० / ३ , २ , १)
21	41	निजी	ड्राई	0.234	सचिन S/O चन्द्रशेकरप्पा होसमणि , होसमणि अशोका S/O थिप्पण्णा , पुजारा शेकरप्पा S/O बसप्पा , (४१ / १ , २ अ , २ बी)
22	42	निजी	ड्राई	0.0808	सुवर्णममा W/O बैककपप , बनावर हनुमंथप्पा S/O शंकरप्पा , (४२ / १ , २)
23	43	निजी	ड्राई	0.0909	संनिंगाममानवरा गिरीशागौड़ा S/O

					बासनागौडा , संनिंगाममानवरा रविगोडा S/O बासनागौडा , बनाकर रामप्पा S/O शंकरप्पा , (४३ / १ , २ बी)
24	44	निजी	ड्राई	0.0606	उल्लगड्डे नीलववा W/O चन्नप्पा , संनिंगाममानवरा छनबसनागौडा S/O कण्णप्पागौडा , संनिंगाममानवरा चन्नाप्पागोडा S/O कण्णप्पागौडा , मुदनुरा पुत्तववा W/O हचपपा , शिरसाडहल्ली ललितववा W/O वीरप्पा , संनिंगाममानवरा शिवनगौडा रुद्रगौडा (४४ / १ , २)
25	45	निजी	ड्राई	0.0202	अतवालागि शंबुलिंगप्पा S/O डोडुबासप्पा , अतवालागि सुनीलकुमार S/O चन्नप्पा , अतवालागि चैनबसाप्पा S/O चन्नप्पा , तलवार चैनबसाप्पा S/ S/O होन्नप्पा , तलवार सौभाग्य W/ W/O चैनबसाप्पा , अतवालागि चन्नप्पा S/O नीलकंताप्पा , (४५ / १ बी , २ , १ अ , १ स)
26	46	निजी	ड्राई	0.0181	डम्बल मल्लिकार्जुन S/O थिराकाप्पा , डम्बल गुंडप्पा S/O थिराकाप्पा , विश्वनाथ S/O कोटरप्पा अंकलकोटे , विश्वनाथ S/O कोटरप्पा अंकलकोटे , डम्बल मल्लिकारना S/O थिराकाप्पा , होसमणि उर्फ पुजारा रवि प्रभाकर , होसमणि उर्फ पुजारा प्रशान्तः प्रभाकर , पुजारा शेकरप्पा S/O बसप्पा , संतोषा संतोषा S/O अशोका होसमणि (४६ / 3A/1, ६)
27	47	निजी	ड्राई	0.0079	यांनाली मंजुनाथ S/O शिवप्पा , यन्नालली सदानंद S/O शिवप्पा , यन्नालली राजशेखर S/O शिवप्पा , बनाकर हनुमंथप्पा S/O शंकरप्पा , बनाकर रामप्पा S/O शंकरप्पा , (४७ / १ , २ , ३ , ४)
गांव का नाम: मोटबेननूर					
28	202	निजी	ड्राई	0.04	कुलेनुरा शिवबासप्पा S/O पुट्टप्पा (२०२ / ०)
29	203	निजी	ड्राई	0.053	लककनननवरा प्रेमानंद S/O थिराकाप्पा , (२०३ / १)

30	203	निजी	ड्राई	0.0505	जैन पाळलेला S/O बलचंदा (२०३/२)
31	206	निजी	ड्राई	0.002525	M . शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलूरु द्वारा प्रतिनिड गोपालकृष्ण S/O केशव हेगडे (२०६/१ स)
32	206	निजी	ड्राई	0.159975	अगडी सतीश S/O चन्द्रशेकरप्पा , अगडी शिवराज S/O चन्द्रशेकरप्पा , अगडी गंगधरप्पा S/O चन्द्रशेकरप्पा (२०६/२ अ)
33	206	निजी	ड्राई	0.057	हदरागेरी होलाबसाप्पा S/O शिवप्पा (२०६/३)
34	215	निजी	ड्राई	0.0805	बुढापनाहल्ली हनुमप्पा S/O हनुमंथप्पा बुढापनाहल्ली अशोकपप S/O हनुमंथप्पा , बुढापनाहल्ली कुमार बसप्पा , बुढापनाहल्ली धर्मपपा S/O हनुमंथप्पा , (२१५/२ बी , २ स , A/1, 2A/२)
35	217	निजी	ड्राई	0.0371	प्लड बैंक व्यादगी (२१७/२)
36	218	निजी	ड्राई	0.0844	बासपुरा लिंगप्पा S/O केंचप्पा , बासपुरा मल्लारेप्पा S/O केंचप्पा , (२१८/२अ + २ब)
37	218	निजी	ड्राई	0.0101	बेन्नूरा नागप्पा S/O सन्नबसप्पा , बेन्नूरा शेखापपा S/O सन्नबसप्पा , जैन अब्दुथालाला S/O बलचंदा (२१८/३ अ)
38	235	निजी	ड्राई	0.0103	अंनी हनुमंथप्पा S/O निंबाणा (२३५/१)
39	235	निजी	ड्राई	0.012	अंनी मालथशा S/O निम्बाणा (२३५/२)
40	235	निजी	ड्राई	0.008	अंनी रामप्पा S/O निम्बाणा (२३५/३)
41	236	निजी	ड्राई	0.035	अंगदी चन्नकेशवरा S/O गुडप्पा , अंगदी लिंगराज S/O गुडप्पा , अंगदी नागभूषण S/O गुडप्पा , (२३६)
42	237	निजी	ड्राई	0.084	कुंटे भीमप्पा S/O कृष्णप्पा , कुंटे वेंकटेश

					S/O भीमप्पा , (२३७)
43	238	निजी	ड्राई	0.04	अंबेरी निंगववा W/O दिल्लीप्पा (२३८)
44	239	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.2372	डलवाई महादेवप्पा S/O सङ्कप्पा , डलवाई रतनव्वा W/O शिवमूर्तिपा , डलवाई चंद्रप्पा S/O शिवमूर्तिपा , डलवाई पक्कीरप्पा S/O शिवमूर्तिपा , मरिनगन्नानवारा उर्फ बनावकर पर्वतएववा W/O महादेवप्पा , अशोका S/O थिराकाप्पा दम्मला , मुजाहिदा मजहराजामिला S/O अब्दुल अजीज , मुजाहिदा मजहराजामिला S/O अब्दुल अजीज , जाविदपक्षा S/O नजिरपाषा , जाविदपक्षा S/O नाजिरा पाशा , (२३९ / २ , ३ , 1B, १क , १द ,)
45	25	निजी	ड्राई	0.0685	कुलकर्णी भाग्य W/O मल्लरा (२५ / १ + २)
46	26	निजी	ड्राई	0.0429	बट्टलाकाटते डोड्डापाकरप्पा गुडप्पा , बट्टलाकाटते सन्नपक्कीरप्पा गुडप्पा (२६)
47	27	निजी	ड्राई	0.035	गाडिजिया S/O चन्नबसयह हवेरीमाता (२७)
48	28	निजी	ड्राई	0.063	गाडिजिया S/O चन्नबसयह हवेरीमाता (२८)
49	33	निजी	ड्राई	0.1389	अंगदी गुडप्पा S/O शिवप्पा (३३ / १)
50	33	निजी	ड्राई	0.03	अंगदी महादेवप्पा S/O मल्लप्पा (३३ / २)
51	33	निजी	ड्राई	0.031	अंगदी रमेश S/O शिवमूर्तिपा (३३ / ३)
52	33	निजी	ड्राई	0.0101	अंगदी चेन्नाकेशव S/O गुडप्पा , अंगदी लिंगराज S/O गुडप्पा , अंगदी नागभूषण S/O गुडप्पा (३३ / ४)
53	34	निजी	ड्राई	0.23	मरिनगन्नानवारा उर्फ बनावकर परवेदव्वा W/O महादेवप्पा (३४)

54	342	निजी	ड्राई	0.065	स्कूल कंपाउंड , प्रेजिडेंट , डी ल बी धारवाड (३४२)
55	343	निजी	ड्राई	0.065	चिस्तिअन चर्च , चिस्तुणापण बवि (३४३ / A, बी)
56	344	निजी	ड्राई	0.06	नलवी शांथववा W/O गुरुपडप्पा , सुलावी चंद्रशेकर गुरुपडप्पा , कुण्डगोला जयश्र W/O राजशेखर (३४४)
57	346	निजी	ड्राई	0.058625	हिरेमतदा अन्नपूर्णा S/O गाडिजिया (३४६ / १ , २)
58	347	निजी	ड्राई	0.0606	हिरेमता बसयह S/O हेमा , हिरेमता सोमशर्करिअह S/O गदिगया (३४७ / १ , २)
59	348	निजी	ड्राई	0.0725	हिरेमतदा सोमशर्करिअह S/O गाडिजिया , हिरेमतदा मुत्तुन्जयप्पा S/O मलकयह (३४८ / 2B+3, 1-२अ)
60	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.03915	हजराथा अल S/O अब्दुल्लासबा गुत्ताला (३४९ / १ अ १)
61	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.05045	अनवरी ललितववअ W/O नागराजा , मतुरा रामप्पा S/O निंगप्पा (३४९ / बी E-स्वाथु No:१५१७००१०१७००१०१३९३ , कह.नो:७८८/अ)
62	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.01575	मतूरा रामप्पा S/O निंगप्पा (३४९ / १ बी)
63	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.032575	क्षीरसागर चंद्रशेकर S/O रामचन्द्रप्पा , मगनहल्ली विवेकानंद S/O हॉलीबाप्पा , एंड अस पैर रतक (३४९ / 1A/5, 1A/ग)
64	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.01705	डलवाई चंद्रप्पा S/O शिवमूर्तिपा (३४९ / १ स)
65	349	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.0296	अस पैर रतक (349/ अ /बी २)
66	350	निजी	ड्राई	0.1313	गुडगुडा सुशीला W/O देवदत्त , गुडगुडा विलिआयामा देवदत्त , गुरगुर जोशेपा देवदत्त , (३५० / 1+2+3+४)

67	351	निजी	ड्राई	0.11615	कोककारगुंडि शिवनगौड़ा S/O मल्लनागौड़ा (३५१)
68	352	निजी	ड्राई	0.0432	थे मेडिकल सुवरंदे बसेला मिशन हॉस्टल गङ्गा बेटागि , ललिता W/O नागराजा अनवर , हिटलमनि मरवीरप्पा S/O शिवप्पा , हिटलमनि मृतुन्जय S/O महावीरप्पा , हलकननवरा मल्लप्पा S/O बसप्पा , हलाकननवरा हनुमप्पा S/O बसप्पा , हलकाननवाराबसवणिपा S/O बसप्पा , हलकाननवारा निंगप्पा S/O बसप्पा , हलकाननवारा मारठंडप्पा S/O पुट्टप्पा , हलकननवरा सुभरा S/O पुट्टप्पा , बिल्लानानावरा राजप्पा S/O चिककपप , नागराजा S/O सहवियप्पा अंवेरी , हिटलमनि चेनबसाप्पा S/O कलावीरप्पा , हिटलमनि मरवीरप्पा S/O कलावीरप्पा , हिटलमनि शांथववा S/O रेवनासिद्धप्पा , हिटलमनि अशोका S/O रेवनासिद्धप्पा , हट्टालमणि सुरेश S/O रेवनासिद्धप्पा , शिवलिंगप्पानरा कुसुमा W/O आनंदप्पा , लककननवरा पार्वत W/O राजशेखर हिटलमनि प्रभूलिंगा राजशेखर , नरसंननवरा निर्मला W/O शकरगौड़ा , लककननवरा शशिकला W/O प्रेमानंद , हट्टालमणि वीरेंद्र राजशेखर , पतीला सुबाषा S/O शिवनगौड़ा , पतीला सोमनगौड़ा S/O शिवनगौड़ा , पतीला अशोका S/O शिवनगौड़ा पतीला रामनगौड़ा S/O शिवनगौड़ा पतीला नागनगौड़ा S/O शिवनगौड़ा (३५२ / 1+2A/2A, 1A+१ब , A/1C, A/2, B, स , 2B+3A/१ , 3B+4+2B+3B/२ , 1A/१अ)
69	353	अन्य	ड्राई	0.0375	क्रिस्चैनारा मासनकटते (३५३)
70	354	निजी	ड्राई	0.0678	हनमनथप्पा S/O गुडप्पा बनाकर वीरप्पा S/O चन्नप्पा अंगदी , शिवानंद S/O संनाथम्माप्पा बेन्नूर (३५४ / २ अ , २ बी , २ स)
71	354	निजी	ड्राई	0.041	मंजुनाथ S/O गणपति रेकरा (३५४ / १ अ)

72	354	निजी	ड्राई	0.0322	पिंजरा हुसेनासबा S/O संनामोदीनासबा (३५४/१ बी)
73	355	निजी	ड्राई	0.0404	अदुरा दुरगप्पा अ को मया ताई नीलववा , (३५५/१ अ)
74	355	निजी	ड्राई	0.0404	अदनुरा होन्नप्पा S/O नीलपण आ सा ताई सन्नव्वे (३५५/१ बी)
75	355	निजी	ड्राई	0.118	जयना अबुथालाला S/O बालचंदा , (३५५/४ अ)
76	355	निजी	ड्राई	0.0404	प्पिना चन्द्रशेकरप्पा S/O रुद्रप्पा (३५५/४ बी)
77	356	निजी	ड्राई	0.051	किरदासरा वीलू (३५६)
78	357	निजी	ड्राई	0.0688	पतीला रुद्रगौड़ा S/O मल्लनागौड़ा , (३५७/१)
79	357	निजी	ड्राई	0.013	हवानुरा नीलपण S/O दुरगप्पा , अस सा ताई दुरागाव्वा , हवनूर गुडप्पा S/O दुरुजगण आ सा ताई दुरुगाववा , हवानुरा नीलपण S/O दुरगप्पा आ सा ताई दुर्गाव्वा , हवानुरा नागप्पा S/O दुरगप्पा अस आ सा ताई दुर्गाव्वा , गिद्दाप्पानवरा पुत्तव्वा W/O निंगप्पा , हवानुरा पाककिराववा W/O मरियप्पा , हवानुरा उर्फ़ गिधदानवरा शिवम्मा W/O निंगप्पा , हवनूर रफ़्त गिद्दाप्पानवरा शिवराज निंगप्पा , हवानुरा उर्फ़ गिद्दाप्पानवरा जयलक्ष्म D/O निंगप्पा , हवनूर उर्फ़ गिद्दाप्पानवरा सर्वमंगला D/O निंगप्पा , हवानुरा उर्फ़ गिद्दाप्पानवरा मोहनकुमार S/O निंगप्पा , हवानुरा उर्फ़ गिद्दाप्पानवरा मल्लेशप्पा दुरगप्पा (३५७/३)
80	357	निजी	ड्राई	0.1224	नदफ़ा हसनासबा S/O पाककिरासबा , B.S. सुरेन्द्रनाथ S/O B.S.मूर्ति (३५७/४ अ)
81	357	निजी	ड्राई	0.0792	अस पैर रतक (३५७/२)
82	360	निजी	ड्राई	0.094	B.S.सुरेन्द्रनाथ W/O लेट B.S.मूर्ति (३६०/१, २)

83	361	निजी	ड्राई	0.4565	डिविशनल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हुबली , मान्य राज्यपालरा कर्नाटक सरकार बेंगलुरु वरा परवागी प्रचार्यारु सरकारी कैगारिका तरबेठी संस्थे , मोटेबेन्नूर सरकारी फाधा , याली सुवर्ण S/O शिवप्पा , कालदेवरा गुरुबसप्पा - केंचप्पा , कालदेवरा शेकअप्पा केंचप्पा , (३६१/ १ , २ , २ रा X-१ , 2, रा)
84	423	निजी	ड्राई	0.035	बेविनाहल्ली मरियप्पा S/O मल्लप्पा , माडीमुळे बालचंद्र S/O शिवराम , अदीमुळे बालचंद्र S/O शिवराम अलिण्टंड , संतोषा S/O वीरा हिरेमरा हिरेमता , अम्बुजा S/O सदाशिवाईअह D/O W/O बालचंद्र अदीमुळे , हावेरी माता गुरुराजा S/O बसवराज , हिरेमता दीपिका S/O वीरा , (४२३ / १ अ / १ , १ अ / २ , १ बी / १ , १ बी / २ , १ स , १ डी)
85	423	निजी	ड्राई	0.07	वीरा S/O वीरबासा हिरेमता (४२३ / २ अ)
86	423	निजी	ड्राई	0.055	कुरी नीलपण S/O निंगप्पा , Aa.Sa.ताई मरिया , कुरी रव S/O निंगप्पा As.Sa.ताई मरिया , कुरी मंजप्पा S/O निंगप्पा As.Sa. ताई मरिया , कुरी मरियव्वा W/O निंगप्पा कुरी पुट्टप्पा S/O गुलप्पा , कुरी बसप्पा S/O गुलप्पा , कुरी नागप्पा S/O गुलप्पा , कुरी सिद्धप्पा S/O गुलप्पा , कुरी महादेवप्पा S/O नीलपण , कुरी हनुमंथप्पा S/O नीलपण (४२३ / २ बी)
87	424	निजी	ड्राई	0.0325	एली मंजुनाथ S/O चेनबसाप्पा (४२४ / १ अ)
88	424	निजी	ड्राई	0.03	मोटेबेन्नूरा मल्लप्पा S/O गुडप्पा , मोटेबेन्नूरा भरमप्पा उर्फ बंडप्पा गुडप्पा , (४२४ / १ बी)
89	424	निजी	ड्राई	0.07	मोटेबेन्नूरा भरमप्पा गुडप्पा , हदिमानी राजम्मा W/O वीरप्पा , मोटेबेन्नूरा वीरप्पा चिककपप , मोटेबेन्नूरा करिथा D/O चिककपप असदारा एना वीरप्पा , मोटेबेन्नूरा बसप्पा S/O गुडप्पा , सनहसाबी मारलववा W/O दोडदनागप्पा

					(४२४/२)
90	425	निजी	ड्राई	0.0643	हिरेमता चन्नमल्लैयह S/O गाडिजा (४२५/१ अ)
91	425	निजी	ड्राई	0.1827	मोरिगेरी वीरभद्रप्पा S/O शिवनंदप्पा , गंगापुरा रतनव्वा S महालिंगप्पा , गंगापुरा लक्ष्मण S/O महालिंगप्पा , गंगापुरा रतनव्वा S/O महालिंगप्पा , गंगापुरा हनुमंथप्पा S/O महालिंगप्पा , गंगापुरा लक्ष्मण S/O महालिंगप्पा (४२५/२)
92	426	निजी	ड्राई	0.0595	कॉनकोर इन्ग्रेडियेन्ट्स लिमिटेड , कॉनकोर इन्ग्रेडियेन्ट्स लिमिटेड भू प् , (४२६/१ + २ अ)
93	426	निजी	ड्राई	0.026	कॉनकोर इन्ग्रेडियेन्ट्स लिमिटेड , कॉनकोर इन्ग्रेडियेन्ट्स लिमिटेड भू प् , (४२६/१ + २ / बी)
94	426	निजी	ड्राई	0.0612	क व् प्रभाकर मोरिगेरी वीरभद्रप्पा S/O शिवनंदप्पा श्री वक्रतुण्डा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर क व् प्रभाकर S/O क वीरभद्रप्पा व् स मोरिगेर S/O म बी शिवनंदप्पा (४२६/१ + २ / स)
	तालुक का नाम: हावेरी				
	गांव का नाम: हावेरी				
1	188	निजी	ड्राई	0.0505	चेनबसाप्पा S/O करबासप्पा भिस्ताकखानवारा (१८८/१)
	गांव का नाम: कनकपुर				
2	14	निजी	ड्राई	0.0102	हावेरी नागप्पा S/O थिप्पण्णा (१४/७)
3	14	निजी	ड्राई	0.0201	मान्य भरता रास्ट्रपतिगालु पार्वती राष्ट्रीय हड्डारि णो४ आदिकृत: आदिकारिगालु भू स्वादिना धारवाड (१४/१५)
	गांव का नाम: नालोगल				
4	135	निजी	ड्राई	0.0444	लमनी प्रवीण S/O लक्ष्मप्पा असदारा ताई प्रेमववा , लमनी नागराजा S/O लक्ष्मप्पा असदारा ताई प्रेमववा लमनी हनुमंथप्पा

					S/O बेतसिंगाप्पा , लमनी प्रवीण S/O लक्ष्मप्पा असदारा ताई प्रेमववा लमनी नागराजा S/O लक्ष्मप्पा असदारा ताई प्रेमववा लमनी हनुमंथप्पा S/O बेतसिंगाप्पा (१३५ / २ , ४)
5	56	निजी	ड्राई	0.1212	शिददनगौड़ा गौरम्मा W/O बीजजनगोडा , पगडारा गिरिजव्वा W/O शिवप्पा , पुजारा नागम्मा W/O शम्भू , पतीला नीलम्मा W/O बासनागौड़ा , दोडुगौड़ा शैला W/O शिवरुद्रगौड़ा , शिददनगौड़ा शिददनगोडा S/O बीजजनगोडा (५६)
गाव का नाम: टोटादायलापुर					
6	82	निजी	ड्राई	0.0225	बनाकर करबासप्पा - नागप्पा , (८२ / २)
7	82	निजी	ड्राई	0.0125	ममता W/O करबासप्पा बनाकर (८२ / ४)
8	83	निजी	ड्राई	0.0606	कलिमनी नीलपण निंगप्पा एंड अस पैर रतक (८३ / २ बी , २ अ)
9	86	निजी	ड्राई	0.0025	मगनूरु राजषेकरप्पा S/O शिवबासप्पा , गुड्डानागौड़ा रायनागौड़ा S/O बासनागौड़ा (८६ / ५ अ , ५ बी)
10	86	निजी	ड्राई	0.2175	अस पैर रतक (८६ / ६)
तालुक का नाम: रानीबेन्नूर					
गांव का नाम: छलागेरि					
1	154	निजी	ड्राई	0.0101	नविन क इ S/O प प इलियास (१५४ / ३)
2	167	निजी	ड्राई	0.135	शेठासनादि जेटटप्पा S/O गुडप्पा , (१६७)
3	170	निजी	ड्राई	0.8181	अस पैर रतक (१७० / १ , २)
4	175	निजी	ड्राई	0.0505	अस पैर रतक (१७५)
5	180	निजी	ड्राई	0.02	अस पैर रतक (१८० / २ अ , २ बी)
6	181	निजी	ड्राई	0.0101	गौड़रा गोडप्पागोदरा उर्फ पतीला राजशेखर

					S/O उज्जैनगोडा , गोडाप्पागोदरा उर्फ पतीला प्रकाश S/O उज्जैनगोडा , नगनहल्ली श्यामसुंदर S/O जयप्पा , नगनहल्ली पवित्र S/O जयप्पा , नगनहल्ली संजीव S/O जयप्पा , (१८१/१, २)
7	182	निजी	ड्राई	0.0101	मज्जागि रेवणेपण - चन्नप्पा , मज्जागि बसप्पा - चन्नप्पा , मज्जागि रुद्रप्पा - चन्नप्पा , (१८२)
8	188	निजी	ड्राई	0.0215	टेग्गीना सुदा W/O बसवराज , टेग्गीना नागराजा S/O बसवराज , टेग्गीना संजीवकुमार S/O बसवराज , (१८८/१)
9	188	निजी	ड्राई	0.0445	सुरागिहल्ली चंद्रकांता S/O पंडरीनाथ (१८८/२)
10	188	निजी	ड्राई	0.0155	सुरेश S/O महंथप्पा गोदारा , रमेश S/O महंथप्पा गोदारा (१८८/३)
11	188	निजी	ड्राई	0.0133	टेग्गीना हनुमंथप्पा S/O बसप्पा (१८८/४)
12	188	निजी	ड्राई	0.011	टेग्गीना हनुमंथप्पा S/O बासप्पा , (१८८/५)
13	188	निजी	ड्राई	0.0155	ठग्गीना महेश S/O रेवणेपण , टेग्गीना बसप्पा S/O रेवणेपण , (१८८/६)
14	213	निजी	ड्राई	0.0202	करेगौड करेगौडा S/O षडानगोडा , करेगौड करेगौड करेगौडा S/O शिददनगोडा , सरकार , मृत्ति देवरा पूजे पुजारा आदिवप्पा - डोडहाणामप्पा , बर्की खंडप्पा S/O रामप्पा , बर्की कृष्णप्पा S/O रामप्पा , बर्की संनाथम्माप्पा S/O रामप्पा , बर्की करेहनुमप्पा S/O रामप्पा , बर्की रामचन्द्रप्पा S/O रामप्पा , बर्की सुरेश S/O रामप्पा , बर्की कांटेण S/O मरुतेपण , बर्की मंजप्पा S/O मरुतेपण , (२१३ / 1X-1, 1X-2, २ , 2/1,)
15	214	निजी	ड्राई	0.0825	थंबडा सुशीलववा W/O महेशप्पा , थंबडा प्रवीण S/O महेशप्पा , थंबडा प्रशान्तः S/O

					महेशप्पा , थंबडा जयश्र D/O महेशप्पा , शेठासनादि नागराजा गुंडप्पा क्याथारी कन्नप्पा S/O केंचप्पा शेत:संदी निंगप्पा बसप्पा टेग्गीना मल्लाववा S/O शिवप्पा टेग्गीना मंजप्पा S/O शिवप्पा टेग्गीना कन्नप्पा S/O शिवप्पा तेम्बडे विनोदाम्मा W/O शिवप्पा तेम्बडे नटराज S/O शवप्पा तेम्बडे रव S/O शिवप्पा पतीला पुष्प W/O बसवराज (२१४/२, ३, ४, ५, ६, ७)
16	215	निजी	ड्राई	0.0808	थंबडा मल्लप्पा - नागप्पा , थंबडा चंद्रप्पा S/O रेवणेपण , (२१५/१, २)
17	216	निजी	ड्राई	0.27	कशी रुद्रप्पा - चेनबसाप्पा (२१६/३)
18	236	निजी	ड्राई	0.0101	पतीला गुरुशिददनगोडा - उज्जैनगोडा , पतीला शिवनगौडा - उज्जैनगोडा , पतीला नीलम्मा W/O सतीश (२३६/१, २)
19	248	निजी	ड्राई	0.0202	हिर्रेबिडारी बसवराजप्पा S/O निंगप्पा , गुंडाप्पालावरा गंगव्वा S/O W/O सोमप्पा , थोटाडा नागराजा S/O हनुमंथप्पा , थोटाडा चंद्रप्पा S/O हनुमंथप्पा , अजारेड्डी सुरेशारेड्डी - कृष्णारेड्डी , अजारेड्डी वेंकारेड्डी - कृष्णारेड्डी , डोडुबेने प्रकाश - चेनबसाप्पा , (२४८/५)
20	264	निजी	ड्राई	0.085	हेगडे गणपति - सीताराम , वैश्यरा नागराजाशेट्टी - मारठंडपपाशेट्टी , संतोषा मल्लेशप्पा कामडोडा , कशी सिद्धप्पा - संगाप्पा , मकानुरा करबासप्पा - जात्तेप्पा , सिद्धप्पा - नागप्पा , तलवार अज्जाप्पा - शिवप्पा , तलवार शकुंतला W/O अज्जाप्पा , मकानुरा शनथप्पा - नरसप्पा , मकानुरा सरहप्पा उर्फ सर्वोत्तम्मा - नरसप्पा , मकानुरा सौभाग्य W/o ज्योतिषा , मकानुरा शनथप्पा - नरसप्पा , मकानुरा सरहप्पा उर्फ सर्वोत्तम्मा - नरसप्पा , मकानुरा सौभाग्य W/O ज्योतिषा , मकानुरा सुषमा W/o ज्योतिषा , मकानुरा अरुअनकुमारा S/O ज्योतिषा ,

					मकानुरा शारदा S/O काशाप्पा उर्फ शाजी , मकानुरा पुर्ज पूजा S/O काशाप्पा उर्फ शाहजी , मकानुरा जगदेव - नरसप्पा , उमेश बाबूराव मुलमुत्तला , भुडिहाला प्रकाश - येल्लप्पा , क्यथम्मनवरा मंजप्पा - हिमप्पा , क्यथम्मनवरा रेवनाशिद्दाप्पा - हिमप्पा , क्यथम्मनवरा कन्नप्पा - हिमप्पा , क्यथम्मनवरा जात्तेप्पा - हिमप्पा , थंबडा करबासप्पा - मल्लप्पा , नागगेरा मुरलीधर - मल्लाराओ यालबुर्गी रंगप्पा - सोमप्पा , बिक्शावार्थीमाता महन्थयः - वाला , कशी सिद्दाप्पा - नागप्पा , शेशम्मानवरा थिराकाप्पा - हनुमंथप्पा , थिप्पन्नानवरा चेनबसाप्पा , थिप्पन्नानवरा चेनबसाप्पा - बसप्पा , (२६४ / * , प्लोट No: ३क्स , 3X-1, 6/2X, 10, 10X, 11, 14X, A14X-1, 15, 16X, 16X-1, 17, 17X, 22, 23X, A23X-1, 23X-1,)
21	265	निजी	ड्राई	0.0202	परमेषाप्पा S/O उज्जप्पा बदनिकायी , सुरेश S/O उज्जप्पा बदनिकायी , काशीगौडरा मल्लिकार्जुनप्पा S/O चन्नबसप्पा , क्यथम्मनवरा बसवणिपा S/O उज्जप्पा , शेशम्मानवरा थिराकाप्पा - हनुमंथप्पा , क्यथम्मनवरा बसवणिपा - हनुमंथप्पा , दोडदानिंगप्पा - कन्नप्पा , डोड्डा बसप्पा S/O कन्नप्पा असदारा १स्ट निंगप्पा , करेगौड मरुलाशिद्दाप्पा - नागप्पा , करेगौड उमेश - नागप्पा असदारा नागप्पा , पतीला कमलव्वा W/O उज्जैनगोडा (२६५ / * , प्लॉट नो : 4, ३क्स , ४क्स , 6, 7, 1,)
22	281	निजी	ड्राई	0.0153	माडपुरा कृष्णामूर्ति S/O रामपा मदपुर वेंकप्पा S/O रामपा माडपुरा चन्द्रशेकरप्पा S/O रामपा माडपुरा भीमप्पा S/O रामप्पा (२८१ / १ + ३)
23	281	निजी	ड्राई	0.015	नगनहल्ली संजीव S/O जयप्पा (२८१ / ७)
24	282	निजी	ड्राई	0.0303	पुरजा शिवप्पा - चेनबसाप्पा , पुजारा

					विरूपक्षप्पा चन्नबसप्पा पुरजोर देवेद्रप्पा चेनबसाप्पा पुर्जा नगारप्पा चन्नबसप्पा पुर्जा रामप्पा चन्नबसप्पा पुर्जा पंचाक्षर S/O हिमप्पा , पुजारा वीरभद्रप्पा नागप्पा , पुजारा शिवरुद्रप्पा नागप्पा पुजारा शिवलिंगप्पा नागप्पा एंड अस पैर रतक (२८२)
25	284A	निजी	ड्राई	0.34	अस पैर रत स (२८४)
26	284B	निजी	ड्राई	0.0165	अस पैर रतक (२८४ / बी)
	गांव का नाम: हुलीहोली				
27	13	निजी	ड्राई	0.0192	कार्यदिशिगालु कृषि उत्पन्न मरुकट्टे - समिति रणेबन्नूर (१३ / १)
28	13	निजी	ड्राई	0.0818	सरकती मोरम की बग्गे (१३ / बी)
29	13	निजी	ड्राई	0.0376	कार्यदिशिगालु कृषि उत्पन्न मरुकट्टे - समिति रणेबन्नूर (१३ / ३)
30	13	निजी	ड्राई	0.011	कलुवे (कलुवे)
31	13	निजी	ड्राई	0.0726	कार्यदिशिगालु कृषि उत्पन्न मरुकट्टे - समिति रणेबन्नूर, सरकती मोरम की बग्गे (१३)
32	14	निजी	ड्राई	0.1111	बजरेड्डी बसवरड्डी हनुमारेड्डी , जररेड्डी बसवररेड्डी S/O हनुमारेड्डी किरणारेड्डी S/O बसवररेड्डी बसवररेड्डी बजरडी , कृष्णारेड्डी S/O सवररेड्डी बजरडी (१४/ १ , २)
33	20	निजी	ड्राई	0.0404	पतीला चाननागौडा S/O छनबसनागौडा , पतीला चाननागौडा S/O छनबसनागौडा, (२० / * , २० / १)
34	21	निजी	ड्राई	0.0202	पतीला चनगौडा S/O छनबसनागौडा (२१)
35	23	निजी	ड्राई	0.0202	मालिगेरा चेन्ना S/O बसवराज , मालिगेरा रविकुमार S/O बसवराज (२३)
36	52	निजी	ड्राई	0.0171	गडडा दनप्पा S/O संगप्पा

					(५२ / १)
37	52	निजी	ड्राई	0.0031	बलगरा हुरब W/O अब्दुल सबा , बलगरा आविदा S/O अब्दुल सबा , बलगरा सविदा अल S/O अब्दुल दादा , बलगरा सदाथ अल S/O अब्दुल सबा (५२ / २)
38	60	निजी	ड्राई	0.0909	अस पैर रतक (६०)
39	63	निजी	ड्राई	0.039	वाण W/O अप्पन्ना जाम्बले , दीपा W/O बसवराज करमानणवारा (६३ / १ अ)
40	63	निजी	ड्राई	0.024	खगडे पुरुषोत्तम S/O जोठेपण (६३ / १ बी / १)
41	63	निजी	ड्राई	0.0175	बागडे उर्फ हेब्बाली रुक्मिणीबाई W/O जोठेपण (६३ / १ स / १)
42	63	निजी	ड्राई	0.086	मिराजकर अनंदा W/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा मिरजकर देवराज S/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा मिराजकर नागरजा S/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा मिराजकर अरुणा S/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा मिरजकर अरविंद S/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा मिराजकर मीराबाई W/O वेंकटेश उर्फ थिप्पण्णा (६३ / २)
गांव का नाम: कज्जअरी					
43	208	निजी	ड्राई	0.0114	देवरागुडा गुडप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा मरदेपपा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा हनुमंथप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा होन्नप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा मरियव्वा W/O चोलप्पा , अदीना शैलाववा W/O गंगाप्पा , कुरियावारा मँजाववा W/O बीरप्पा , देवरागुडा बीरप्पा S/O चोळप्पा , देवरागुडा हनुमंथापा S/O चोलप्पा , डोड्डामलाप्पानवरा सुमा W/O बीरप्पा , (२०८ / २ अ + २ बी)
44	208	निजी	ड्राई	0.02	देवरागुडा गुडप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा मरदेपपा S/O मारठंडप्पा ,

					देवरागुडा हनुमंथप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा होन्नप्पा S/O मारठंडप्पा , देवरागुडा मरियव्वा W/O चोलप्पा , अदीना शैलाववा W/O गंगाप्पा , कुरियावारा मँजाववा W/O वीरप्पा , देवरागुडा वीरप्पा S/O चोळप्पा , देवरागुडा हनुमंथापा S/O चोलप्पा , डोड्डामलाप्पानवरा सुमा W/O वीरप्पा , मल्लिकार्जुनप्पा S/O परमेश्वरप्पा कंपनननवरा सदाशिवप्पा S/O परमेश्वरप्पा (२०८/२ स/१, २ स/२)
45	208	निजी	ड्राई	0.0696	अस पैर रतक (२०८/३)
गांव का नाम: काकोल					
46	02	निजी	ड्राई	0.0164	कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्वीजीशन है धारवाड़ (२/१ + २)
47	104	निजी	ड्राई	0.0202	सुरानगी लीलावत W/O गुडप्पा सुरानगी प्रशांत S/O गुडप्पा सुरानगी संतोषा S/O गुडप्पा निम्बारगी अनुपमा W/O रविंदर निरालाजी राजेश्वर W/O अशोका बेरदारा मंजुआला W/O शंकरगौडा टट्टी रेखा W/O सोमप्पा (१०४/२)
48	178	निजी	ड्राई	0.0202	ऑथोर्त्य फॉर लैंड एक्वीजीशन न ह ४ धारवाड़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर न ह अ चित्रदुर्गा यूनिट धारवाड़ (१७८/१)
49	178	निजी	ड्राई	0.0202	कन्नम्मानवरा मुदुकाप्पा S/O निंगप्पा कन्नम्मानवरा करियप्पा S/O निंगप्पा कन्नम्मानवरा निन्नाम्मा W/O बसप्पा कन्नम्मानवरा महादेवप्पा S/O बसप्पा शिङ्गनाला शांथववा W/O मिलारप्पा शिङ्गनहाला पाठववा W/O हनुमंथप्पा कन्नम्मानवरा वीरप्पा S/O बसप्पा कन्नम्मानवरा दिल्लीप्पा S/O बसप्पा करबासप्पानवरा लक्ष्म W/O रामप्पा (१७८/३)
50	178	निजी	ड्राई	0.0202	कन्नम्मानवरा शांथववा W/O गुडप्पा देवगण शेमसुन्दरा S/O वेंकटेश (१७८/२ बी, १७८/२ स)

51	178	निजी	ड्राई	0.0202	मल्लप्पा S/O शिवप्पा कन्नम्मानवरा दिल्लीप्पा S/O करियप्पा कन्नम्मानवरा हकहपप S/O करियप्पा कन्नम्मानवरा हेंगप्पा S/O करियप्पा कन्नम्मानवरा शिवप्पा S/O करियप्पा कन्नम्मानवरा हनुमंथप्पा S/O बसप्पा कण्णनाममानवरा गुडप्पा S/O बसप्पा कन्नम्मानवरा नीलम्मा W/O बसप्पा कन्नम्मानवरा हनुमंथप्पा S/O बसप्पा कन्नम्मानवरा गुडप्पा S/O बसप्पा (१७८ / ४ , १७८ / ४ / बी १ ,)
52	178	निजी	ड्राई	0.0202	डोडचिक्कन्नानवरा बिलेप्पा S/O भरमप्पा गाज़ी प्रेमकका W/O ईश्वरप्पा गाज़ी मँजाववा W/O शेकअप्पा डोडचिक्कन्नानवरा निगनाव्वा W/O W/O भरमप्पा डोडचिक्कन्नानवरा निगववा W/O भरमप्पा डोडचिक्कन्नानवरा दिल्लीप्पा S/O भरमप्पा गाज़ी प्रेमकका W/O ईश्वरप्पा गाज़ी मँजाववा W/O शेकअप्पा कन्नम्मानवरा बसप्पा गप्पा कन्नम्मानवरा मुदुकाप्पा नागप्पा कन्नम्मानवरा करियप्पा नागप्पा (१७८ / ५ अ A, / ५)
53	181	निजी	ड्राई	0.005	अगासनाहल्ली नीलपण S/O निंगप्पा (१८१ / २)
54	181	निजी	ड्राई	0.005	अगासनाहल्ली चंद्रप्पा S/O गुडप्पा अगासनाहल्ली निजलिंगपा S/O गुडप्पा अगासनाहल्ली हनुमंथप्पा S/O गुडप्पा (१८१ / ३)
55	182	निजी	ड्राई	0.0202	कंचनगौड़ा होन्नम्मा W/O छनबसनागौड़ा कंचनगौड़ा कन्नागौड़ा S/O चन्नाबसनागौड़ा कंचनगौड़ा पुत्तानागौड़ा S/O चन्नाबसनागौड़ा कंचनगौड़ा रामनगौड़ा S/O चन्नाबसनागौड़ा (१८२)
56	183	निजी	ड्राई	0.0088	स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर , न ह अ चित्रदुर्गा (१८३ / १ बी)
57	183	निजी	ड्राई	0.011	सुवर्णववा W/O चानवीरप्पा बल्लारी (१८३ / २ बी)
58	184	निजी	ड्राई	0.0101	जवाली पर्वतएववा W/O शंकरप्पा जवाली

					शंकरप्पा शिवगौडा जाली कल्लप्पा शंकरप्पा जवाली दयामंगौडा शंकरप्पा शिवनगौडा पुट्टप्पा कल्लप्पा अगडी सवंतराववा शंकरप्पा अत्तिहाली करबासव्वा पांचप्पा शिवनगौडा हॉलमम W/O भीमनगौडा होसमणि सरोजम्मा W/O मलेश्वरप्पा शिवनगौडा नागनगौडा S/O भीमनगौडा (१८४/१)
59	184	निजी	ड्राई	0.005	जवाली उर्फ जवालेरा उर्फ शिवनगौडा चंद्रगौडा S/O शकरगौडा उर्फ चन्द्रशेकरप्पा (१८४/३)
60	185	निजी	ड्राई	0.0202	सुवर्णववा W/O चानवीरप्पा बल्लारी (१८५/१)
61	186	निजी	ड्राई	0.0101	पतीला यशवंतगौडा - शिवपुत्रागौडा (१८६/२)
62	186	निजी	ड्राई	0.0101	पाटिल शिवकुमार - यशवंतगौडा (१८६/४)
63	187	निजी	ड्राई	0.0085	पाटिल उर्फ दयामनगौडा यशवंतगौडा S/O शिवपुत्रागौडा (१८७/२)
64	188	निजी	ड्राई	0.0491	मुदुकानगौडा छनबसववा W/O मारबासानगोडा मुदुकानगौडा कलावीरगोडा W/O मारबासानगोडा मुदुकानगौडा वीरबासानगोडा W/O छानबासानगोडा (१८८)
65	195	निजी	ड्राई	0.0149	अगासनाहल्ली हनुमंथप्पा W/O S/O निंगप्पा (१९५/१)
66	195	निजी	ड्राई	0.0026	अगासनाहल्ली चिककपप S/O भरमप्पा अगासनाहल्ली मल्लेशप्पा S/O भरमप्पा (१९५/२ + ३)
67	197	निजी	ड्राई	0.0032	कम्मरा बसवण्णिपा शंकरप्पा कम्मरा रामचन्द्रप्पा शंकरप्पा कम्मरा शिवनंदप्पा शंकरप्पा कम्मरा उर्फ अर्काचारी शांथववा W/O सोमेश्वरप्पा उर्फ सोमेशाराप्पा बढईगिरी उर्फ कम्मरा पुत्तववा W/O छिडककपप कम्मरा उर्फ अर्काचारी गुदाचार S/O सोमेश्वरप्पा उर्फ सोमेश्वरप्पा कम्मरा उर्फ अर्काचारी बसवराज S/O सोमेशाराप्पा उर्फ सोमेशाराप्पा बढईगिरी रतनववा W/O

					प्रभु (१९७/४)
68	197	निजी	ड्राई	0.0069	कम्मरा बसवराजप्पा शंकरप्पा कम्मरा रामचन्द्रप्पा शंकरप्पा कम्मरा शिवनंदप्पा शंकरप्पा कम्मरा उर्फ अर्काचारी शांथववा W/O सोमेश्वरप्पा उर्फ सोमेशसरआप्पा बढईगिरी उर्फ कम्मरा पुत्तव्वा W/O चिककपप कम्मरा उर्फ अर्काचारी गुदाचार S/O सोमेश्वरप्पा उर्फ सोमेश्वरप्पा कम्मरा उर्फ अर्काचारी बसावर्जा S/O सोमेश्वरप्पा उर्फ सोमेश्वरप्पा बढईगिरी रतनव्वा W/O प्रभु श्ववाराप्पा बसवरजप्पा हिमप्पा श्वररादा सुरेषाप्पा हिमप्पा श्वरदा प्रकाश हिमप्पा श्वरदा मल्लेशप्पा हिमप्पा श्वरदा रतनव्वा हिमप्पा कम्मरा बसवणिप्पा शंकरप्पा कम्मरा रामचन्द्रप्पा शंकरप्पा कम्मरा शिवनडैप्पा शंकरप्पा कम्मरा उर्फ अररकचरी शांथववा W/O सोमेशाराप्पा उर्फ सोमेशाराप्पा बढईगिरी उर्फ कम्मरा पुत्तव्वा W/O चिककपप कम्मरा उर्फ अरकसह्री गुदाचार S/O सोमेशाराप्पा उर्फ सोमहवरप्पा कम्मरा उर्फ अर्काचारी बसवराजप्पा S/O सोमेशाराप्पा उर्फ सोमेशाराप्पा बढईगिरी रतनव्वा W/O प्रभु (१९७/५ अ A, १९७/५ B, १९७/५ स)
69	62	निजी	ड्राई	0.0254	ब्यालहुनासी चन्नबसप्पा वीरूपाक्षप्पा सर्वरू गौरम्मा ईश्वरप्पा सवाङ्गुरु नागम्मा शेकरप्पा सलीहल्ली जयश्री महदेवप्पा उप्पणा शांथम्मा बसवारप्पा नागराजा सणगानबसप्पा कस्तूराममा संगबसप्पा असदारा संगंगबसप्पा शोभा संगनबसप्पा असदारा सणगानबसप्पा देवेंद्र संगनबसप्पा असदारा संगनबसप्पा (६२/१)
70	62	निजी	ड्राई	0.0352	कुदरिहला चन्द्रशेकरप्पा S/O संनिगाप्पा , कुदरिहला चेतनबसाप्पा S/O संनिगाप्पा (६२/२)
71	62	निजी	ड्राई	0.0101	बालहणसी छनबसववा W/O वीरप्रकाशाप्पा गौरववा W/O ईश्वरप्पा नागव्वा W/O शेकरप्पा जयश्र W/O महादेवप्पा शांथववा W/O बसवराजप्पा कुदरिहला नागराजा S/O संगनबसप्पा कुदरिहला कस्तूरेववा D/O संगनबसप्पा कुदरिहला शोभा D/O

					संगनबसप्पा कुदरिहलाल धर्मेन्द्र S/O संगनबसप्पा (६२ / ३)
72	92	निजी	ड्राई	0.1304	मुदुकानगौड़ा वीरानगोडा S/O छनबसनागौड़ा मुदुकानगौड़ा भरमानगोडा S/O छानबासानगोडा मुदुकानागौडर अकल्लनागौड़ा S/O छानबासानगोडा मुदुकानगौड़ा छनबसववा W/O मारबासानगोडा मुदुकानगौड़ा कलावीरगोडा S/O मारबासानगोडा (९२ / २ बी २)
73	92	निजी	ड्राई	0.1221	गुद्धेम्मी बसप्पा - हचपपा (९२ / २ अ)
74	93	निजी	ड्राई	0.0052	मुत्तागि मल्लिकार्जुन चैनबसाप्पा मुट्टिगी सिद्धप्पा चैनबसाप्पा मुत्तागि वीरप्पा मुरगप्पा मुत्तागि विरूपक्षप्पा मुरगप्पा मुत्तागि प्रभाडकर मुटीगप्पा मुट्टिगीशेट्टारा मृत्तुन्जयप्पा S/O चन्द्रशेकरप्पा मुतीगीशेट्टारा उमेश S/O चन्द्रशेकरप्पा मुट्टिगिशेट्टर हमेषाप्पा S/O चन्द्रशेकरप्पा (९३ / १)
75	93	निजी	ड्राई	0.015	कण्णगौडरा राजेश्वरी शिवनगौड़ा कण्णगौडरा शरथागोडा शिवनगौड़ा मुत्तागि मल्लिकार्जुन चैनबसाप्पा मुत्तागि सिद्धप्पा चैनबसाप्पा मुत्तागि वीरप्पा मुरगप्पा मुत्तागि विरूपक्षप्पा मुरगप्पा मुत्तागि प्रभाकर मुरगप्पा मुट्टिगीशेट्टारा मय्युजप्पा S/O चन्द्रशेकरप्पा मुट्टिगेशेट्टारा उमेश S/O चन्द्रशेकरप्पा मुट्टिगीशेट्टारा हमेषाप्पा S/O चन्द्रशेकरप्पा (९३ / २ बी / 2, ९३ / २ अ)
76	99	निजी	ड्राई	0.0031	होलियापानवारा महादेवप्पा निंगप्पा होलियापानवारा बीडुडाप्पा हनुमंथप्पा होलियापानवारा थिप्पेषप्पा S/O नीलपण होलियापानवारा हनुमंथप्पा S/O नीलपण होलियापानवारा वीरप्पा S/O नीलपण कन्नम्मानवारा महदेवकका W/O करियप्पा मुदिगौद परववा W/O हनुमंथप्पा होलियापानवारा उर्फ अगासनाहल्ली हलाववा W/O चन्नबसप्पा होलियापानवारा उर्फ अगासनाहल्ली सविता W/O चन्नबसप्पा असदारा ताई हलवा होलीयपपववरा उर्फ अगासनाहल्ली मलप्पा S/O चन्नबसप्पा

					असदारा ताई हालववा होलियाप्पानवरा उर्फ अगासनाहल्ली प्रशांत W/O चन्नबसप्पा असदारा ताई हालववा होलियननवरा मँजाववा W/O सोमप्पा होलियाप्पानवरा मालतेश S/O सोमप्पा असदारा ताई मँजाववा होलियाप्पानवरा गुडप्पा S/O सोमप्पा असदारा ताई मनाज्वा होलियाप्पानवरा रेणुका W/O सोमप्पा असदारा ताई मँजाववा होलियाप्पानवरा सधअ S/O सोमप्पा असदारा ताई मँजाववा होलियाप्पानवरा चिककपप S/O गुडप्पा होलियाप्पानवरा रामप्पा गुडुपा होलियाप्पानवरा होन्नव्व W/O निंगप्पा करियावारा प्रेमकका W/O शंकरप्पा होत्तीनिंगनानवारा रेखा W/O चोलप्पा होलियप्पनवरा यल्लववा D/O निंगप्पा होलियाप्पानवरा रतनव्वा W/O निंगप्पा असदारा ताई होन्नव्वे (९९/१ A, ९९/१ B, ९९/स)
77	99	निजी	ड्राई	0.007	स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर न ह A चित्रदुर्गा यूनिट धारवाड (९९/अ)
गांव का नाम: कामाडोड					
78	10	निजी	ड्राई / नॉन एग्रीकल्चर	0.118	अस पैर रतक (१०)
79	36	निजी	ड्राई	0.0202	पटेल चाननगोडा S/O शिवनगौडा (३६)
80	63	निजी	ड्राई	0.0321	पटेल वालज S/O हरजी पटेल वीरज S/O हरजी (६३/१ अ)
81	63	निजी	ड्राई	0.0624	पटेल वालज S/O हरजी पटेल वीरज S/O हरजी (६३/१ बी)
82	63	निजी	ड्राई	0.028	पटेल हनासाबेना W/O वालजी एंड अस पैर रतक (६३/२)
83	91	निजी	ड्राई	0.0364	ईरानी अब्दुल करिमासबा - अब्दुल जब्बरखाना (९१/१ बी)
84	91	निजी	ड्राई	0.028	सुरेश स टी श्री आद्याक्षरु परिपूर्ण ट्रस्ट (र)

					रणेबन्नूर (९१ / २ अ)
85	91	निजी	ड्राई	0.0156	डोड्डामणि सावित्र W/O हनुमंथप्पा (९१ / २ बी)
86	91	निजी	ड्राई	0.035	डोड्डामणि उर्फ बनाकर सिद्धेश S/O महादेवप्पा डोड्डामणि उर्फ बनाकर मल्लेशप्पा S/O शिवप्पा डोड्डामणि उर्फ बनाकर रेवणेपण S/O शिवप्पा डोड्डामणि उर्फ बनाकर बसवराज S/O शिवप्पा डोड्डामणि उर्फ बनाकर थिराकाप्पा डोड्डामणि उर्फ बनाकर गौरम्मा शिवप्पा गौडरा मल्लम्मा W/O रनगौडा (९१ / ८)
87	92	निजी	ड्राई	0.0606	सरकार , मेलमालिगी सिद्धप्पा S/O जातेप्पा , मेलमालिगी मंजप्पा S/O जातेप्पा , कल्लिसालु शांथम्मा W/O करबासप्पा , कल्लिसाला हनुमंथप्पा S/O करबासप्पा , मालिजम्मा W/O नागप्पा , गंगम्मा W/O पक्कीरप्पा , अनसूयममा W/O गाडीगप्पा , क्रारूरा चोलप्पा , S/O निंगप्पा , करुआ नागराजा S/O चोलप्पा , कजरी रांवकब्बा S/O निंगप्पा , काम्बली चौदववा W/O सुरेश , हुचलवारा पुष्प W/O करियप्पा , ब्यादगी कृष्णप्पा S/O रामप्पा , कृष्णप्पा रामप्पा ब्यादगी कोरवारा गंगाप्पा S/O गंगाप्पा , (९२ / 2+3+4+5A+B/1, 2+3+4+5A+B/2, 2+3+4+5+6/C1, 2+3+4+5+6/C2,2+3+4+5+6/C3, 2+3+4+5+6A+6B/2B,)
88	97	निजी	ड्राई	0.0707	पटेल शिवलिंगनगौडा S/O महादेवगौडा (९७ / ४)
	गांव का नाम: करूर				
89	109	निजी	ड्राई	0.0077	हिरगौडरा मल्लेशा S/O हनुमागौडा (१०९ / १)
90	109	निजी	ड्राई	0.0025	हिरगौडरा नागप्पा S/O कुरुवट्टेपण (१०९ / २)
91	109	निजी	ड्राई	0.0085	हवानुरा होंनेपा गोडाप्पा हवनूर विरूपक्षप्पा गोडाप्पा हवनूर बसप्पा गोडाप्पा

					(१०९/३)
92	109	निजी	ड्राई	0.005	ज स राजू S/O ज सिद्धप्पा (१९०/४)
93	109	निजी	ड्राई	0.0025	हिरगौड़रा नागप्पा S/O कुरुवट्टेपण (१०९/५)
94	125	निजी	ड्राई	0.0552	खोलती हरियप्पा - संनहनुमथप्पा (१२५/१)
95	125	निजी	ड्राई	0.0884	खोलती शिवप्पा S/O हनुमथप्पा , बी ग रामलिंगेशा , बी ग बसप्पा Sa. हरिहर (१२५/२)
96	131	निजी	ड्राई	0.022	श्रीकंठ S/O शंकरप्पा ोगंगनानावरा (१३१/३)
97	157	निजी	ड्राई	0.032825	कण्णगौड़रा रामनगौड़ा - बसवनथप्पा (१५७/१ अ + १/१)
98	157	निजी	ड्राई	0.037875	चलगेरी मल्लाववा W/O हनुमथप्पा होरकरी शांथववा W/O द्यावाप्पा डिब्बादा नागम्मा W/O शंकरप्पा मरिहोंनेपानवारा होन्नम्मा W/O अककपप होरकरी होन्नप्पा S/O द्यावाप्पा होरकरी बसप्पा S/O द्यावाप्पा होरकरी सुरप्पा S/O द्यावाप्पा होरकरी पुट्टप्पा S/O द्यावाप्पा होरकराप्पा हरियप्पा S/O हनुमथप्पा होरकराप्पा पुट्टप्पा S/O हरियप्पा (१५७/२ अ , २ बी , २ स)
99	163	निजी	ड्राई	0.0101	बेन्नूरा मंजप्पा S/O भीमप्पा (मद्य) , बनाकर जगदीशा S/O बसप्पा , कमताडा अज्जाप्पा S/O निंगप्पा , कमताडा रेवणेपण S/o निंगप्पा , हिरेबिडार गुटववा W/O होन्नप्पा , कारीगर आनंदप्पा S/O निंगप्पा , मनकुरा रंगम्मा W/O शेकअप्पा , कुरियावारा ललिता W/O शिवप्पा , मांकुरा मालथशा S/O शेकअप्पा , निर्मला W/O प्रदीप G. क , मनकुरा निजगुण S/O शेकअप्पा , मनकुरा जयम्मा S/O शेकअप्पा , मनकुरा मंजुनाथ S/O शेकअप्पा , मनकुरा इन्द्रजा S/O D/O शेकअप्पा (१६३)
100	171	निजी	ड्राई	0.0162	खोलती हरियप्पा संनहनुमप्पा

					(१७१ अ / २ बी / १)
101	171	निजी	ड्राई	0.0558	रामको इंडस्ट्रीज कूर , मुददयावंननवरा बसवनथप्पा - होन्नप्पा (१७१ अ / १ बी / १ अ , १ बी / २)
102	171	निजी	ड्राई	0.0162	प्रवीण S/O रामनगौड़ा रामनगौड़ा गिरिशा S/O रामनगौड़ा रामनगौड़ा (१७१ अ / २ बी / २)
103	209	निजी	ड्राई	0.09	रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कूर , इंदुमत W/O ह विश्वनाथ , श्रेया S/O ह विश्वनाथ , कन्नला मंजुनाथ - निंगप्पा , कन्नला नागप्पा - निंगप्पा , रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कूर , शेट्टारा शरणप्पा S/O शांतवीरप्पा , शेट्टारा इरप्पा S/O शांतवीरप्पा , कूर व् स चेयरमैन , डायरेक्टर हेल्थ एंड फालिमय बैंगलोर विद्यादिकारी प्राथमिक आरोग्य गतका कूर रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कूर सारथी गंगम्मा - दिल्लीप्पा , चेयरमैन ग म प सोसाइटी कूर (२०९ अ / १ बी , ४ , ५ , १ बी / २ , ३ , २ + - प १ , १ डी , , ६ बी , ६ बी / २ , 209B/*)
104	210	निजी	ड्राई	0.0121	इंडस्ट्रीज लिमिटेड कूर कुरुडाप्पानवरा केंचप्पा S/O रामचन्द्रप्पा कॉलजी शनथप्पा S/O निंगप्पा कॉलजी शिवजयप्पा S/O निंगप्पा मालगि अशोका S/O हनुमंथप्पा कॉलजी गुडप्पा S/O निंगप्पा सुर्वे रव S/O बसपापा अनादि बसवराज S/O हनुमंथप्पा कोलचेरी हनुमंथप्पा S/O शिवजयप्पा तलवार उर्फ होसमणि सोमप्पा S/O करेहनुमप्पा तलवार उर्फ होसमणि हलदपण S/O करेहनुमप्पा (२१० / १ , १ अ / १ ,)
105	210	निजी	ड्राई	0.0081	ओलेकरा उर्फ तलवार सोमप्पा - भीमप्पा (२१० / १७)
106	210	निजी	ड्राई	0.0102	तलवार जयप्पा S/O संनहनुमप्पा , तलवार संनहनुमप्पा - ताई दयामब्बा (२१० / १९ - प १ ,)
107	210	निजी	ड्राई	0.0119	तलवार उर्फ हुनासिकते सोमप्पा - हनुमप्पा , तलवार उर्फ हुनासिकते सोमप्पा - हनुमप्पा ,

					(२१०/२०/प १, २०/प २)
108	210	निजी	ड्राई	0.0112	तलवार उर्फ ओलेकरा हलदपण - दुरगप्पा (२१०/२२)
109	211	निजी	ड्राई	0.0297	गोदारा गणेशप्पा - मल्लप्पा, गोपीनाथ - लक्ष्मण नैका (२११/१ बी/२-प १,)
110	211	निजी	ड्राई	0.0261	रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कूर, (२११/१ स/२-प 1, २)
111	211	निजी	ड्राई	0.0342	नैका (२)
गांव का नाम: कुनाबेव					
112	122	निजी	ड्राई	0.0502	हुलुगावलिंगे कैदरीसीडे (१२२)
गांव का नाम: मागुद					
113	185 / 3	निजी	ड्राई	0.0404	मुदिगौद शिवलिंगनगौड़ा S/O शिवप्पा मुदिगौद हनुमंथप्पा S/O शिवप्पा मुदिगोदरा चन्नाबसनागौड़ा S/O शिवप्पा किरागेरी करबासप्पा बसलिंगप्पा किरागेरी रेवणेपण बसलिंगप्पा किरागेरी चन्नबसप्पा बालिंगप्पा असदारा ताई गौरववा किरागेरी शंबुलिंगप्पा बसलिंगप्पा असदारा ताई गौरववा किरागेरी गौरववा बसलिंगप्पा (१८५/३)
गांव का नाम: रानीबेनूर (ग्रामीण)					
114	27	निजी	ड्राई	0.0404	जादवा शारदाम्मा वो रामप्पा बगावती शकुंतला W/O परशुरामप्पा पतीला रेणुका W/O धर्मगौदा जादव मंजुनाथ S/O रामप्पा जादवा अशोका S/O रामप्पा जादवा नगेंद्रप्पा S/O रामप्पा पावर शांता W/O मेघराज बगावती कुसुमा W/O नगेंद्रप्पा एंड अस पैर र टी स (२७/५, १ बी/४)
115	29	निजी	ड्राई	0.04545	हुलुबंनि थिरुकाप्पा सिद्धप्पा, हळबांणी शेकअप्पा सिद्धप्पा, (२९/१)
116	29	निजी	ड्राई	0.042925	घुग्गी बसवण्णिपा - मलकाप्पा (२९/२)
117	327 & 328	निजी	ड्राई	0.1515	मकानुरा करबासप्पा - महादेवप्पा, मकानुरा

					वीरभद्रप्पा - चन्नबसप्पा , मकानुरा चन्नप्पा S/O चैनबसाप्पा , मकानुरा विरूपक्षप्पा S/O चैनबसाप्पा , मकानुरा नीलववा S/O शिवरुद्रप्पा , कोडिहल्ली सुनंदा W/O नागराजा , मरिगोदरा सरोजा उर्फ रूआपा W/O करेगौडा , मकानुरा महादेवप्पा , - करबासप्पा , काकोला हेमा - मल्ला , काकोला कोत्रा - मल्ला काकोला बसवराजयः मलिंगप्पा , काकोला शकायह मलिंगप्पा काकोला हेमा मल्ला , काकोला कोत्रा मल्ला काकोला बसवराजयः मलिंगप्पा , काकोला शकायह मलिंगप्पा , (३२८ / ३ , ४ , ५ , ६ , ७ , ८ , ९)
118	363	निजी	ड्राई	0.0808	अस पैर रतक एंड मालवल्ली मलकाप्पा S/O मल्लप्पा मालवल्ली शिवप्पा S/O मल्लप्पा मालवल्ली बसवराजप्पा S/O मल्लप्पा मालवल्ली शांता W/O परवाथाप्पा मालवल्ली मलकाप्पा S/O मल्लप्पा मालवल्ली शिवप्पा S/O मल्लप्पा मालवल्ली बसवराज S/O मल्लप्पा मालवल्ली शांता W/O परवाथाप्पा (३६३ / १ + २ + ४)
119	874	निजी	ड्राई	0.1919	गुलानानावरा बसप्पा - संनाप्पा (८७४)
120	874	निजी	ड्राई	0.0404	चाननगौड़ा चैनबसाप्पा बसप्पा गोदा शिवण्णनवरा नागप्पा S/O सिद्धप्पा गोदा शिवण्णनवरा महादेवप्पा S/O सिद्धप्पा चाननगौड़ा नंजप्पा बसप्पा गुलानानावरा बसप्पा संनाप्पा (८७४)
गांव का नाम: वडेरयानाहल्ली					
121	17	निजी	ड्राई	0.0101	गौड़रा रुद्रगौड़ा S/O बसप्पा , (१७ / १)
122	17	निजी	ड्राई	0.0101	गौड़रा रुद्रगौड़ा W/O बसप्पा गौड़रा बासनागौड़ा S/O बासप्पागोदरा गौड़रा सन्नगौड़ा S/O बसप्पागोदरा अ को मया रुद्रगौड़ा गौड़रा प्रभुगौड़ा S/O बसप्पा गौड़रा अ को मया रुद्रगौड़ा गौड़रा बसंगोदरा

					S/O बसप्पागोदरा अ को मया रुद्रगौडर गौडरा नागनगौडा S/O बसप्पागोदरा कर्नाटक नीरवरी निगम (१७/२)
123	18	निजी	ड्राई	0.0048	हीरमत्तूरा उर्फ डोनगारा दुरुगप्पा S/O पक्कीरप्पा (१८/१)
124	18	निजी	ड्राई	0.0037	हीरमत्तूरा उर्फ डोनगारा शंकराववा W/O सिद्धप्पा, हीरमत्तूरा उर्फ डोनगारा प्रकाश S/O सिद्धप्पा (१८/२)
125	18	निजी	ड्राई	0.0032	हीरमत्तूरा उर्फ डोनगारा मुपानप्पा S/O पक्कीरप्पा (१८/३)
126	18	निजी	ड्राई	0.0048	हीरमत्तूरा उर्फ डोनगारा हनुमंथप्पा S/O पक्कीरप्पा (१८/४)
127	19	निजी	ड्राई	0.005	म्यागलागेरी नागराजा S/O बसप्पा (१९/३)
128	19	निजी	ड्राई	0.0057	सिद्धप्पा S/O नागप्पा बनाकर, हनुमंथप्पा S/O नागप्पा बनाकर (१९/४)
129	19	निजी	ड्राई	0.0095	तावरगोंदी चेन्नम्मा W/O करबासप्पा (१९/५)
130	20	निजी	ड्राई	0.0047	रेवनासिद्धप्पा कुरवाटिप्पा गौडरा बसवराज कुरुवट्टेपण गौडरा विनोदाम्मा W/O चन्नबसप्पा अंजेरा कुसुमा जगदीशा बदनुरू रुद्रम्मा रमेश पुजारा सवित्र परमेषा हड्डारि सकम्मा कन्नप्पा पुजारा शिल्पा जदडीशा गौडरा करबासप्पा चेनबसाप्पा गौडरा शरणप्पा चन्नबसप्पा गौडरा सविथाराम्मा शिवप्पा गौडरा अनीता शिवप्पा गौडरा अनु शिवप्पा (२०/१)
131	20	निजी	ड्राई	0.0185	गौडरा रुद्रगौडा S/O बसप्पा गौडरा, गौडरा नागनगौडा S/O बसप्पा गौडरा, गौडरा सन्नगौदा S/O बसप्पागोदरा, गौडरा बसप्पागोडा S/O बसप्पागोदरा, गौडरा प्रभुगौडा S/O बसप्पागोदरा, गौडरा बसवराजगौडा S/O बसप्पा गौडरा

					(२० / २)
132	20	निजी	ड्राई	0.0132	गौडरा शंकरप्पा S/O गंगाप्पा , गौडरा गणेशप्पा S/ S/O गंगाप्पा (२० / ३)
133	21	निजी	ड्राई	0.0606	गौडरा महादेवप्पा S/O बसप्पा , गौडरा मल्लप्पा S/O बसप्पा , गौडरा शिवनंदप्पा S/O बसप्पा , गौडरा रुद्रप्पा S/O बसप्पा , (२१ / 4+५ स / २)
134	22	निजी	ड्राई	0.0045	प्रकाश S/ O नागराजप्पा उर्फ नगेंद्रप्पा नलवेगळा उर्फ चन्नणगौदा भू प् (२२ / २)
135	22	निजी	ड्राई	0.003	प्रकाश S/ O नागराजप्पा उर्फ नगेंद्रप्पा नलवेगळा उर्फ चन्नणगौदा भू प् (२२ / ३)
136	22	निजी	ड्राई	0.0038	चंद्रगौडर शंकरप्पा बनाकर (२२ / ४)
137	22	निजी	ड्राई	0.0068	गंगदरा शंकरप्पा बनाकर (२२ / ५)
138	29	निजी	ड्राई	0.0707	अस पैर रतक (२९)
139	31	निजी	ड्राई	0.0148	पुजारा राजेंद्र S/O लक्ष्मण , पुजारा रविंद्र S/O लक्ष्मण , लता लक्ष्मण पुजारा - उर्फ लता नयका , भारतदा राष्ट्रपतिगाला परवागी स्त्रीयता शकरमहामेडा - जमलासबा (३१ / १ , २)
140	32	निजी	ड्राई	0.0104	मुददेवान्नानवारा रवीन्द्रनाथ S/O बसवनथप्पा , मुददेवान्नानवारा रवीन्द्रनाथ S/O बसवनथप्पा , मुददेवान्नानवारा चंद्रकांता S/O बसवनथप्पा , मुददेवान्नानवारा प्रभाकर S/O बसवनथप्पा , मुददेवान्नानवारा रवीन्द्रनाथ - बसवनथप्पा , मुददेवान्नानवारा चंद्रकांता - बसवनथप्पा , (३२ / १ , २ बी , २ क्ष - १)
			कुल	12.367925	

[फा. सं. NHAI/Six lane CTA-HAV/LA/Karnataka/Notif./3a/PIU-Chitradurga/NH-4/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2020

S.O. 218(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2932(E) Dated 9th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No: 48 (Old NH No:4) on the stretch of land from Km. 260 to Km. 340 (Davanagere - Haveri Setion) in the district of HAVERI in the State of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Deccan Herald” and “Vijayavani” both dated 29th August 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH4 in the stretch of land from Km.260.000 to Km.340 (Davanagere -Haveri section) of National Highway No:48(Old NH No:4) in the district of HAVERI in the State of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: HAVERI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Byadgi				
	Village: Chattra				
1	118	Private	Dry	0.0101	Hullugavalu 118
2	119	Private	Dry	0.0101	Mallada Shekavva S/o Basavaraja , Malladada Sudha W/o Basavaraja Asadara Ajji Ningavva

					119 / 2
3	119	Private	Dry	0.0707	Poti Ningappa S/o Guddappa , Poti Nagappa S/o Guddappa 119 / 3
4	124	Private	Dry	0.0329	Haveri Yallappa S/o Pakkirappa , Haveri Parasurama S/o Pakkirappa , Haveri Bharamappa S/o Pakkirappa , Haveri Manjunatha S/o Pakkirappa 124 / 1
5	76	Private	Dry	0.0737	Kuradannanavara Hanumanthappa S/o Puttappa , As per RTC 76 A / 1 A , 1 B
6	76	Private	Dry	0.0475	Kuradannanavara Hanumanthappa S/o Puttappa 76 A / 2 A
7	76	Private	Dry	0.0404	Kakola Basavaraja S/o Mallappa , Kuradannanavara Hanumanthappa S/o Puttappa 76 / B
Village: Gundenahalli					
8	30	Private	Dry	0.068	Shanthavva W/o Karabasappa Yathnalli , Gundappa S/o Basavanneppa Yarvannanavara , Malagoudra Sushilavva W/o Neelappa , Honnappanavara Hanumanthappa S/o Gundappa , Yallapura Ningappa S/o Chikkappa , Yallapura Basappa S/o Chikkappa , Yallapura Guddappa S/o Chikkappa , Gundappa S/o Basavanneppa Yarvannanavara , Karabasappa S/o Basavanneppa Yarvannanavara , Karabasappa S/o Basavanneppa Yarvannanavara , Yathnalli Veerappa S/o Thotappa 30 / 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 3A , 3B , 3C , 7
9	31	Private	Dry	0.0525	Barki Gouramma W/o Hanumanthappa Jadara Guttemma W/o Shivajappa Madivalara Yallamma W/o thippesha Barki Pushpavathi W/o Pakkerappa Barki Kirana Pakkirappa Barki Arunakumar Pakkirappa Gudagura Suresha S/o Holeyappa Kunte Shankrappa S/o Hanumanthappa Kunte Shankrappa S/o Hanumanthappa Kunte Radyabai W/o Muralidara Kunte Hanumanthappa Muralidara Kunte Srinivasa Muralidara Kunte Aravinda Muralidara Kunte Vishanappa S/o Hanumanthappa Rasinakara Ambuja W/o Mahipathirao Damodar Sunanda W/o Parashurama Savale Saroja W/o Venkatesha Rangadola Valthala W/o Vasantharao Kunte Rajendra Ramakrishna Jadv Savithra W/o

					Surendra Maladkara Vinoda W/o Suresha Kunte Rmaakantha Ramakrishan Kunte Vinakayaka Ramakrishna Kunte Nagrathna W/o Gopalarao Kunte Prashantha W/o Gopalarao Kunte Arunakurma S/o Gopalarao Kunte Sunilkumara S/o Gopalarao Shiggavi Suresha Channabasappa 31 / 1 A , 1B 1+2A/2, 1+2A/3, 1+2A/4 , 1+2A/5 1+2A/1A 1+2A/1B 1+2A/1C
10	31	Private	Dry	0.05	Apinakoppa Mahadevappa S/o Thirakappa , Apinakoppa Pakkirappa S/o Thirakappa , Apinakoppa Thirakappa S/o Ramappa , Apinakoppa Shivanandappa S/o Ramappa , Apinakoppa Pakkirappa S/o Thirakappa , Apinakoppa Thirakappa S/o Ramappa , Apinakoppa Shivanandappa S/o Ramappa , Kunte Ramakrishna S/o Durugojappa , Motagi Manohara S/o Shankarappa , 31 / 2 , 2B/1 ,2B/2
11	31	Private	Dry	0.0998	Dalavayi Mahadevappa S/o Sunkappa , 31 / 3
12	31	Private	Dry	0.0861	Barki Hanumappa S/o Ningappa , Barki Bharamappa S/o Honnappa , Barki Duragappa S/o Honnappa , Barki Ramappa S/o Honnappa 31 / 4A , 4B
13	32	Private	Dry	0.02	Pujara Shekarappa S/o Basappa 32 / 2 + 3 C
14	32	Private	Dry	0.015	Devihosura Shankrappa S/o Gundeppa , Guddappa S/o Shankrappa Devihosura , Devihosura Sangitha W/o Prakasha Devihosura Kusuma D/o Prakash asadara tayi Sangitha , 32 / 4 A , 4 B
15	32	Private	Dry	0.101	Pujara Shekarappa S/o Basappa , Byadagi Vatlahalli Shankrappa S/o Channabasappa , Byadagi Haleshappa S/o Godeppa , Yathinahalli Shivarudrappa S/o Hemanna , Byadagi Haleshappa S/o Godeppa , Byadagi Eshwarappa Godappa 32
16	33	Private	Dry	0.15	Shivanagavva W/o Shekhappa Anveri Kunta Ashoka S/o Lakshmanarava Kunte Sudhakara S/o Lakshmanarava Kunte Suresha S/o Lakshmanarava Kunte Krishnamurthy S/o Lakshmanarava Yathnalli Manjunatha W/o Shivappa 33 / 2 A , 2 B / 1 , 2 B / 2 , 2 B / 3 , 2

					B / 4 , 2
17	34	Private	Dry	0.015	Yathinahalli Sadananda S/o Shivappa , Yathinahalli Rajashekara S/o Shivappa , Yathinahalli Anusuyamma W/o Shivappa , 34 / 2 A
18	34	Private	Dry	0.054	As per RTC 34 / 3
	Village: Kadamanahalli				
19	39	Private	Dry	0.0202	Sannirappanavara Shivanagouda S/ o Yallanagouda , Patila Veerabasanagouda S/o Mahadevagouda , Patil Hanmanthagouda S/o Shambanagouda , Patila Ramanagouda S/o Shambanagouda , Patil yallavva W/o Shambanagouda , Hanchimane Basavanneppa S/o Gudnappa , Patila Channabasanagouda S/o Ninganagouda , Hanchimani Jambunatha S/o Gundappa , Patila Basavannevva W/o Hanumanthappa , Patila Shiddanagouda S/o Hanumanthagouda , Patila Naganagouda S/o Yallanagouda , Patila PUTtanagouda S/o Yallanagouda , Patila Prabhu Gouda S/o Yallanagouda , Patila Ninganagouda S/o Yallanagouda , Patila Shankragouda S/o Yallanagouda , Patila Shivanagouda S/o Ninganagouda , Patila Shivanagouda S/o Ninganagouda , Patila Shivanagouda S/o Ninganagouda 39 / 1+2 A / 1 , 1+2 A / 2 B+3B P , 1+2 A / 2 A+3B P , 1+2A/2B, 1+2A/3, 1+2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 4,
20	40	Private	Dry	0.0707	Goyal Salilkumara S/o Girishchand 40 / 3 , 2 , 1
21	41	Private	Dry	0.234	Sachina S/o Chandrashekarappa Hosamani , Hosamani Ashoka S/o Thippanna , Pujara Shekarappa S/o Basappa , 41 / 1 , 2 A 2 B
22	42	Private	Dry	0.0808	Suvarnamma W/o Bakkappa , Banakara Hanumanthappa S/o Shankarappa , 42 / 1 , 2
23	43	Private	Dry	0.0909	Sanningammanavara Girishagouda S/o Basanagouda , Sanningammanavara Ravigouda S/o Basanagouda , Banakara Ramappa S/o Shankarappa , 43 / 1 , 2 B
24	44	Private	Dry	0.0606	Ullagadde Nilavva W/o Channappa ,

					Sanningammanavara Chanabasanagouda S/o Kannappagouda , Sanningammanavara Channappagouda S/o Kannappagouda , Mudenura Puttavva W/o Huchappa , Shirasadahalli Lalithavva W/o Veerappa , Sanningammanavara Shivanagouda Rudragouda 44 / 1 , 2
25	45	Private	Dry	0.0202	Atavalagi Shambulingappa S/o Doddabasappa , Atavalagi Sunilakumara S/o Channappa , Atavalagi Chanabasappa S/o Channappa , Talavara Chanabasappa S/o Honnappa , Talavara Soubagya W/o Chanabasappa , Atavalagi Channappa S/o Neelakantappa , 45 / 1 B , 2 , 1 A , 1 C
26	46	Private	Dry	0.0181	Dambala Mallikarjuna S/o Thirakappa , Dambala Gundappa S/o Thirakappa , Vishwanatha S/o Kotreppa Ankalakote , Vishwanatha S/o Kotrappa Ankalakote , Dambala Mallikarna S/o Thirakappa , Hosamani urf Pujara Rvi Prabakara , Hosamani urf Pujara Prashantha Prabhakara , Pujara Shekarappa S/o Basappa , Santhosha S/o Ashoka Hosamani 46 / 3A/1, 3C/1, 3A/2, 3B/1, 3B/2, 1+2, 4 , 6
27	47	Private	Dry	0.0079	Yannalli Manjunatha S/o Shivappa , Yathnalli Sadananda S/o Shivappa , Yathnalli Rajashekara S/o Shivappa , Banakara Hanumanthappa S/o Shankarappa , Banakara Ramappa S/o Shankarappa , 47 / 1 , 2 , 3 , 4
Village: Motebennur					
28	202	Private	Dry	0.04	Kulenura Shivabasappa S/o Puttappa 202 / 0
29	203	Private	Dry	0.053	Lakknnanavara Premananda S/o Thirakappa , 203 / 1
30	203	Private	Dry	0.0505	Jaina Pallalala S/o Valachanda 203 / 2
31	206	Private	Dry	0.002525	M . Shahi Exports Private Limited Bengaluru edara prathinid Gopalakrishna S/o Keshava hegade 206 / 1 C
32	206	Private	Dry	0.159975	Agadi Satisha S/o Chandrashekarappa , Agadi Shivaraja S/o Chandrashekarappa , Agadi Gangadharappa S/o Chandrashekarappa 206 / 2 A

33	206	Private	Dry	0.057	Hadarageri Holabasappa S/o Shivappa 206 / 3
34	215	Private	Dry	0.0805	Budapanahalli Hanumappa S/o Hanumanthappa Budapanahalli Ashokappa S/o Hanumanthappa , Budapanahalli Kumara Basappa , Budapanahalli Dharmappa S/o Hanumanthappa , 215 / 2 B , 2 C , 2A/1, 2A/2
35	217	Private	Dry	0.0371	PLD Bank Byadagi 217 / 2
36	218	Private	Dry	0.0844	Basapura Lingappa S/o Kenchappa , Basapura Mallareppa S/o Kenchappa , 218 / 2A + 2B
37	218	Private	Dry	0.0101	Bennura Nagappa S/o Sannabasappa , Bennura Shekhappa S/o Sannabasappa , Jaina Ambruthalala S/o Valachanda 218 / 3 A
38	235	Private	Dry	0.0103	Anni Hanumanthappa S/o Ninbanna 235 / 1
39	235	Private	Dry	0.012	Anni Malathesha S/o Nimbanna 235 / 2
40	235	Private	Dry	0.008	Anni Ramappa S/o Nimbanna 235 / 3
41	236	Private	Dry	0.035	Angadi Channakeshwara S/o Guddappa , Angadi Lingaraja S/o Guddappa , Angadi Nagabhushana S/o Guddappa , 236
42	237	Private	Dry	0.084	Kunte Bheemappa S/o Krishnappa , Kunte Venkatesh S/o Bheemappa , 237
43	238	Private	Dry	0.04	Anveri Ningavva W/o Dilleppa 238
44	239	Private	Dry / Non Agriculture	0.2372	Dalavayi Mahadevappa S/o Sankappa , Dalavayi Rathnavva W/o Shivamurtheppa , Dalavayi Chandrappa S/o Shivamurtheppa , Dalavayi Pakkirappa S/o Shivamurtheppa , Marinagannanavara urf Banakara Parvatheevva W/o Mahadevappa , Ashoka S/o Thirakappa Dummala , Mujahida Majaharajamila S/o Abdul Ajija , Mujahida Majaharajamila S/o Abdul ajija , Javidpasha S/o Najirapasha , Javidpasha S/o Najira pasha , 239 / 2 , 3 , 1B, 1C , 1D ,
45	25	Private	Dry	0.0685	Kulakarni Bhagya W/o Mallara 25 / 1 + 2
46	26	Private	Dry	0.0429	Battalakatte Doddapakkerappa Guddappa , Battalakatte

					Sannapakirappa Guddappa 26
47	27	Private	Dry	0.035	Gadigeyya S/o Channabasaiah Haverimata 27
48	28	Private	Dry	0.063	Gadigeyya S/o Channabasaiah Haverimata 28
49	33	Private	Dry	0.1389	Angadi Guddappa S/o Shivappa 33 / 1
50	33	Private	Dry	0.03	Angadi Mahadevappa S/o Mallappa 33 / 2
51	33	Private	Dry	0.031	Angadi Ramesha S/o Shivamurtheppa 33 / 3
52	33	Private	Dry	0.0101	Angadi Channakeshava S/o Guddappa , Angadi Lingaraja S/o Guddappa , Angadi Nagabhushana S/o Guddappa 33 / 4
53	34	Private	Dry	0.23	Marinagannanavara urf Banakara Parvethavva W/o Mahadevappa 34
54	342	Private	Dry	0.065	School Compound , President , D L B Dharwada 342
55	343	Private	Dry	0.065	Chistian Charch , Chistrinnappa Bavi 343 / A, B
56	344	Private	Dry	0.06	Nulavi Shanthavva W/o Gurupadappa , Sulavi Chandrashekara Gurupadappa , Kundagola Jayasri W/o Rajashekara 344
57	346	Private	Dry	0.058625	Hirematada Annapurna S/o Gadigeyya 346 / 1 , 2
58	347	Private	Dry	0.0606	Hiremata Basaiah S/o Hemaiah , Hiremata Somashekaraiah S/o Gadigeya 347 / 1, 2
59	348	Private	Dry	0.0725	Hirematada Somashekaraiah S/o Gadigeyya , Hirematada Mruthunjayappa S/o Malkaiah 348 / 2B+3, 1-2A
60	349	Private	Dry / Non Agriculture	0.03915	Hajaratha Ali S/o Abdullasaba Guttala 349 / 1 A 1
61	349	Private	Dry / Non Agriculture	0.05045	Anaveri Lalithavva W/o Nagaraja , Matura Ramappa S/o Ningappa 349 / B E-Swathu No:151700101700101393 ,
62	349	Private	Dry / Non Agriculture	0.01575	Mattura Ramappa S/o Ningappa 349 / 1B
63	349	Private	Dry / Non	0.032575	kshirasagara Chandrashekara S/o

			Agriculture		Ramachandrappa , Maganahalli Vivekananda S/o Holibaappa , and as per RTC 349 / 1A/5, 1A/G
64	349	Private	Dry / Non Agriculture	0.01705	Dalavayi Chandrappa S/o Shivamurtheppa 349 / 1 C
65	349	Private	Dry / Non Agriculture	0.0296	As per RTC 349/ A / B 2
66	350	Private	Dry	0.1313	Gudagura Sushila W/o Devadatta , Gudagura Viliyama Devadatta , Guragura Joshepa Devadatta , 350 / 1+2+3+4
67	351	Private	Dry	0.11615	Kokkaragundi Shivanagouda S/o Mallanagouda 351
68	352	Private	Dry	0.0432	The Medical Suvarande Basela mission Hostel Gadaga Betagi , lalitha W/o Nagaraja Anver , Hittalamani Maraveerappa S/o Shivappa , Hittalamani Mruthunjaya S/o Mahaveerappa , Halakannanavara Mallappa S/o Basappa , Halakkannanavara Hanumappa S/o Basappa , Halakannavarabasavanneppa S/o Basappa , Halakannavara Ningappa S/o Basappa , Halakannavara Marthandappa S/o Puttappa , Halakannanavara Subhara S/o Puttappa , Billannanavara Rajappa S/o Chikkappa , Nagaraja S/o Shviappa Anveri , Hittalamani Chanabasappa S/o Kalaveerappa , Hittalamani Maraveerappa S/o Kalaveerappa , Hittalamani Shanthavva S/o Revanasiddappa , Hittalamni Ashoka S/o Revanasiddappa , hattalamani Suresha S/o Revanasiddappa , Shivalingappanara Kusuma W/o Anandappa , Lakkannanavara Parvathi W/o Rajashekara Hittalamani Prabhulinga Rajashekara , Narasannanavara Nirmala W/o Shekaragouda , Lakkannanavara Shashikala W/o Premananda , Huttalamani Veerandra Rajashekara , Patila Subasha S/o shivanagouda , Patila Somanagouda S/o Shivanagouda , Patila Ashoka S/o Shivanagouda Patila Ramanagouda S/o Shivanagouda Patila Naganagouda S/o Shivanagouda 352 / 1+2A/2A, 1A+1B , A/1C, A/2, B, C , 2B+3A/1 , 3B+4+2B+3B/2 , 1A/1A
69	353	Common	Dry	0.0375	Krischannara Masanakatte

					353
70	354	Private	Dry	0.0678	Hanamanthppa S/o Guddappa Banakara Veerappa S/o Channappa Angadi , Shivananda S/o Sannathammappa Bennur 354 / 2 A , 2 B , 2 C
71	354	Private	Dry	0.041	Manjunatha S/o Ganapathi Raykara 354 / 1 A
72	354	Private	Dry	0.0322	Pinjara Husenasaba S/o Sannamodinasaba 354 / 1 B
73	355	Private	Dry	0.0404	Adura Duragappa A Ku Mya Tayi Neelavva , 355 / 1 A
74	355	Private	Dry	0.0404	Adanura Honnappa S/o Neelappa Aa Sa Tayi Sannavva 355 / 1B
75	355	Private	Dry	0.118	Jyana Ambruthalala S/o Balachanda , 355 / 4 A
76	355	Private	Dry	0.0404	Uppina Chandrashekarappa S/o Rudrappa 355 / 4 B
77	356	Private	Dry	0.051	Kirdasara Beelu 356
78	357	Private	Dry	0.0688	Patila Rudragouda S/o Mallanagouda , 357 / 1
79	357	Private	Dry	0.013	Havanura Neelappa S/o Duragappa , As Sa Tayi Duragavva , Havanur Guddappa S/o Duruagappa Aa Sa Tayi Durugavva , Havanura Neelappa S/o Duragappa Aa Sa Tayi Durgavva , Havanura Nagappa S/o Duragappa Aa Sa tayi Durgavva , Giddappanavara Puttavva W/o Ningappa , Havanura Pakkirasaba W/o Mariyappa , Havanura urf Giddanavara Shivamma W/o Ningappa , Havanur rft Giddappanavara Shivaraj Ningappa , Havanura urf Giddappanavara Jayalakshimi D/o Ningappa , Havanur urf Giddappanavara Sarvamangala D/o Ningappa , Havanura urf Giddappanavara Mohankumar S/o Ningappa , Havanura urf Giddappanavara Malleshappa Duragappa 357 / 3
80	357	Private	Dry	0.1224	Nadafa Hasanasaba S/o Pakkirasaba , B.S. Surendranatha S/o B.S.Murthy 357 / 4 A
81	357	Private	Dry	0.0792	As per RTC 357 / 2
82	360	Private	Dry	0.094	B.S.Surendranatha W/o Late

					B.S.Murthy 360 / 1 , 2
83	361	Private	Dry	0.4565	Divisional Engineering Project Huballi , Manya Rajyapalara Karnataka Sarkara Bengaluru evara Paravagi Pracharyaru Sarkari Kaigarika tarabethi Samsthe , Motebennur Sarkari Fadha , Yali Suvarna S/o Shivappa , Kalledevara Gurubasappa - Kenchappa , Kalledevara Shekappa Kenchappa , 361/ 1 , 2 , 2 Ra X-1 , 2, Ra
84	423	Private	Dry	0.035	Bevinahalli Mariyappa S/o Mallappa , Madimule Balachandra S/o Shivarama , Adimule Balachandra S/o Shivarama Alienated , Santhosha S/o Veeraiah Hiremata , Ambuja D/o Sadashivaiah W/o Balachandra Adimule , Haveri mata Gururaja S/o Basavaraja , Hiremata Deepika S/o Veeraiah , 423 / 1 A / 1 , 1 A / 2 , 1 B / 1 , 1 B / 2 , 1 C , 1 D
85	423	Private	Dry	0.07	Veeraiah S/o Veerabasaiah Hiremata 423 / 2 A
86	423	Private	Dry	0.055	Kuri Neelappa S/o Ningappa , Aa.Sa.Tayi Mariya , Kuri Ravi S/o Ningappa As.Sa.tayi Mariya , Kuri Manjappa S/o Ningappa As.Sa. tayi Mariya , Kuri Mariyavva W/o Ningappa Kuri Puttappa S/o Gulappa , Kuri Basappa S/o Gulappa , kuri Nagappa S/o Gulappa , Kuri Shiddappa S/o Gulappa , Kuri Mahadevappa S/o Neelappa , Kuri Hanumanthappa S/o Neelappa 423 / 2 B
87	424	Private	Dry	0.0325	Eli Manjunatha S/o Chanabasappa 424 / 1 A
88	424	Private	Dry	0.03	Motebennura Mallappa S/o Guddappa , Motebennura Bharamappa urf Banappa Guddappa , 424 / 1 B
89	424	Private	Dry	0.07	Motebennura Bharamappa Guddappa , Hadimani Rajamma W/o Beerappa , Motebennura Beerappa Chikkappa , Motebennura Karitha D/o Chikkappa Asadara Anna Beerappa , Motebennura Basappa Guddappa , Sannahasabi Marallavva W/o Doddanagappa 424 / 2
90	425	Private	Dry	0.0643	Hiremata Channamallaiah S/o Gadigeiah 425 / 1 A
91	425	Private	Dry	0.1827	Morigeri Veerabhadrappe S/o Shivanandappa , Gangapura

					Rathnavva S/o Mahalingappa , Gangapura Lakshmana S/o Mahalingappa , Gangapura Rathnavva S/o Mahalingappa , Gangapura Hanumanthappa S/o Mahalingappa , Gangapura Lakshmana S/o Mahalingappa 425 / 2
92	426	Private	Dry	0.0595	Kankor Ingrediyants Limited , Kankor Ingrediyants Limited Bhu pa , 426 / 1 + 2 A
93	426	Private	Dry	0.026	Kankor Ingrediyants Limited , Kankor Ingrediyants Limited Bhu pa , 426 / 1 +2 / B
94	426	Private	Dry	0.0612	K V Prabhakara Morigeri Veerabhadrapa S/o Shivanandappa Sri Vakrathunada Agritech Private limited Director K V Prabhakara S/o K Veerabadrappa V S Morigeri S/o M B Shivanandappa 426 / 1 + 2 / C
Taluk: Haveri					
Village: Haveri					
1	188	Private	Dry	0.0505	Chanabasappa S/o Karabasappa Bhistakkanavara 188 / 1
Village: Kanakapur					
2	14	Private	Dry	0.0102	Haveri Nagappa S/o Thippanna 14 / 7
3	14	Private	Dry	0.0201	Manya Bharatha Rastrapathigalu paravathi Rastriya heddari no4 Adikrutha adikarigalu Bhu swadina Dharavada 14 / 15
Village: Nelogal					
4	135	Private	Dry	0.0444	Lamani Pravina S/o Lakshmappa Asadara Tayi Premavva , lamani Nagaraja S/o Lakshmappa Asadara Tayi Premavva lamani Hanumanthappa S/o Betasingappa , lamani Pravina S/o lakshmappa Asadara Tayi Premavva Lamani Nagaraja S/o lakshmappa Asadara Tayi Premavva lamani Hanumanthappa S/o Betasingappa 135 / 2 , 4
5	56	Private	Dry	0.1212	Shiddanagoudra Gouramma W/o Bijjanagouda , Pagadara Girijavva W/o Shivappa , Pujara Nagamma W/o Shambhu , Patila Neelamma W/o Basanagouda , Doddagoudra Shaila W/o Shivarudragouda , Shiddanagoudra Shiddanagouda S/o Bijjanagouda 56

	Village: Totadayellapur				
6	82	Private	Dry	0.0225	Banakara Karabasappa - Nagappa , 82 / 2
7	82	Private	Dry	0.0125	Mamatha W/o Karabasappa Banakara 82 / 4
8	83	Private	Dry	0.0606	Kallimani Neelappa Ningappa and as per RTC 83 / 2 B , 2 A
9	86	Private	Dry	0.0025	Maganuru Rajashekarappa S/o Shivabasappa , Guddanagouda Rayanagouda S/o Basanagouda 86 / 5 A , 5 B
10	86	Private	Dry	0.2175	As per RTC 86 / 6
	Taluk: Ranibennur				
	Village: Chalageri				
1	154	Private	Dry	0.0101	Navin K E S/o P P Eliyas 154 / 3
2	167	Private	Dry	0.135	Shethasanadi Jetteppa S/o Guddappa , 167
3	170	Private	dry	0.8181	As per RTC 170 / 1 , 2
4	175	Private	Dry	0.0505	As per RTC 175
5	180	Private	Dry	0.02	As per RTC 180 / 2 A , 2 B
6	181	Private	Dry	0.0101	Goudappagoudra urf Patila Rajashekara S/o Ujjanagouda , Goudappagoudra urf Patila Prakasha S/o Ujjanagouda , Nagenahalli Shyamasundara S/o Jayappa , Nagenahalli Pavithra S/o Jayappa , Nagenahalli Sanjeeva S/o Jayappa , 181 / 1 , 2
7	182	Private	Dry	0.0101	Majjagi Revaneppa - Channappa , Majjagi Basappa - Channapp , Majjagi Rudrappa - Channappa , 182
8	188	Private	Dry	0.0215	Teggina Suda W/o Basavaraja , Teggina Nagaraja S/o Basavaraja , Teggina Sanjevakumara S/o Basavaraja , 188 / 1
9	188	Private	Dry	0.0445	Suragihalli Chandrakantha S/o Pandarinatha 188 / 2
10	188	Private	Dry	0.0155	Suresha S/o Mahanthappa goudara , Ramesha S/o Mahanthappa Goudara 188 / 3
11	188	Private	Dry	0.0133	Teggina Hanumanthappa S/o Basappa 188 / 4
12	188	Private	Dry	0.011	Teggina Hanumanthappa S/o Basapp

					, 188 / 5
13	188	Private	Dry	0.0155	Theggina Mahesha S/o Revaneppa , Teggina Basappa S/o Revaneppa , 188 / 6
14	213	Private	Dry	0.0202	Karegoudra Karegouda S/o Shddanagouda , Karegoudra Karegouda S/o Shiddanagouda , Sarakara , Mruthi Devara Puje Pujara Adivappa - Doddahanamappa , Barki Khandeppa S/o Ramappa , Barki krishnappa S/o Ramappa , Barki Sannathamappa S/o Ramappa , barki Karehanumappa S/o Ramappa , Barki Ramachandrappa S/o Ramappa , Barki Suresha S/o Ramappa , Barki Kantesha S/o Maruteppa , Barki Manjappa S/o Maruteppa , 213 / 1X-1, 1X-2, 2 , 2/1,
15	214	Private	Dry	0.0825	Thembada Sushilavva W/o Maheshappa , Thembada Praveena S/o Maheshappa , Thembada Prashantha S/o Maheshappa , Thembada Jayasri D/o Maheshappa , Shethasanadi Nagaraja Gundappa Kyathari Annappa S/o Kenchappa Shethasandi Ningappa Basappa Teggina Mallavva S/o Shivappa Teggina Manjappa S/o Shivappa Teggina Annappa S/o Shivappa Tembada Vinodamma W/o Shivappa Tembada Nataraja S/o Shivappa Tembada Ravi S/o Shivappa Patila Pushpa W/o Basavaraja 214 / 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
16	215	Private	Dry	0.0808	Thembada Mallappa - Nagappa , Thembada Chandrappa S/o Revaneppa , 215 / 1 , 2
17	216	Private	Dry	0.27	Kashi Rudrappa - Chanabasappa 216 / 3
18	236	Private	Dry	0.0101	Patila Gurushiddanagouda - Ujjanagouda , Patila Shivanagouda - Ujjanagouda , Patila Neelamma W/o Satisha 236 / 1 , 2
19	248	Private	Dry	0.0202	Hirebidari Basavarajappa S/o Ningappa , Gundappalavara Gangavva W/o Somappa , Thotada Nagaraja S/o Hanumanthappa , Thotada Chandrappa S/o Hanumanthappa , Ajareddi Sureshareddy - Krishnareddy , Ajareddi Venkareddy - Krishnareddy , Doddabenne prakash - Chanabasappa , 248 / 5

20	264	Private	Dry	0.085	Hegade Ganapathi - Sitarama , Vaishyara Nagarajashetti - Marthandappashetti , Santhosha Malleshappa Kamadoda , Kashi Shiddappa - Sangappa , Makanura Karabasappa - Jatteppa , Shiddappa - Nagappa , Talavara Ajjappa - Shivappa , Talavara Shakuntala W/o Ajjappa , Makanura Shanthappa - Narasappa , Makanura Sarvappa urf Sarvothamma - Narasappa , Makanura Soubagya w/o Jyothappa , Makanura Shanthappa - Narasappa , Makanura Sarvappa urf Sarvothamma - Narasappa , Makanura Soubhagya W/o Jyothappa , Makanura Sushma w/o Jyothappa , Makanura Aruanakumara S/o Jyothappa , Makanura Sharada S/o Kashappa urf Shaji , Makanura Puja S/o Kashappa urf Shahaji , Makanura Jagadeva - Narasappa , Umesha Baburao Mulamuttala , Bhudihala Prakasha - Yallappa , Kyathammanavara Manjappa - Hemappa , Kyathammanavara Revanashiddappa - Hemappa , Kyathammanavara Annappa - Hemappa , Kyathammanavara Jatteppa - Hemappa , Thembada Karabasappa - Mallappa , Nagagera Muralidhara - Mallarao Yalaburgi Rangappa - Somappa , Bikshavarthimata Mahanthaiah - Valaiah , Kashi Shiddappa - Nagappa , Sheshammanavara Thirakappa - Hanumanthappa , Thippannanavara Chanabasappa , thippannanavara Chanabasappa - Basappa , 264 / * , plot No: 3X , 3X-1, 6/2X, 10, 10X, 11, 14X, A14X-1, 15, 16X, 16X-1, 17, 17X, 22, 23X, A23X-1, 23X-1,
21	265	Private	Dry	0.0202	Parameshappa S/o Ujjappa Badanikayi , Suresha S/o Ujjappa Badanikayi , Kashigoudra Mallikarjunappa S/o Channabasappa , Kyathammanavara Basavanneppa S/o Ujjappa , Sheshammanavara Thirakappa - Hanumanthappa , Kyathammanavara Basavanneppa - Ujjappa , Doddaningappa - Kannappa , Dodda Basappa S/o Kannappa Asadara 1st Ningappa , Karegoudra Marulashiddappa - Nagappa , Karegoudra Umesha - Nagappa Asadara Nagappa , Patila Kamalavva W/o Ujjanagouda 265 / * , Plot No : 4, 3X , 4X , 6, 7, 1,
22	281	Private	Dry	0.0153	Madapura Krishnamurthy S/o Ramapa Madapur Venkappa S/o

					Ramapa Madapura Chandrashekarappa S/o Ramapa Madapura Bheemappa S/o Ramappa 281 / 1 +3
23	281	Private	Dry	0.015	Nagenahalli Sanjeeva S/o Jayappa 281 / 7
24	282	Private	Dry	0.0303	Puraja Shivappa - Chanabasappa , Pujara Verupakshappa Channabasappa Purajar Devendrappa Chanabasappa Purja Nagarappa Channabasappa Purja Ramappa Channabasappa Purja Panchakshari S/o Hemappa , Pujara Veerabadrappa Nagappa , Pujara Shivarudrappa Nagappa Pujara Shivalingappa Nagappa and As per RTC 282
25	284A	Private	Dry	0.34	As per RT C 284
26	284B	Private	Dry	0.0165	As per RTC 284 / B
Village: Hulihalli					
27	13	Private	Dry	0.0192	Karyadashigalu Krushi Uthpannna Marukatte - Samithi Ranebennur 13 / 1
28	13	Private	Dry	0.0818	Sarakati Moram Kani bagge 13 / B
29	13	Private	Dry	0.0376	Karyadashigalu Krushi Uthpannna Marukatte - Samithi Ranebennur 13 / 3
30	13	Private	Dry	0.011	Kaluve Kaluve
31	13	Private	Dry	0.0726	Karyadashigalu Krushi Uthpannna Marukatte - Samithi Ranebennur , Sarakati Moram Kani bagge, 13
32	14	Private	Dry	0.1111	Bajareddi Basavaraddi Hanumaraddi , Jarareddy Basavareddy S/o Hanumareddy Kiranareddy S/o Basavareddy Bajaraddi , Krishnareddy S/o Savararaddi Bajaraddi 14/ 1 , 2
33	20	Private	Dry	0.0404	Patila Channagouda S/o Chanabasanagouda , Patila Channagouda S/o Chanabasanagouda , 20 / * , 20 / 1
34	21	Private	Dry	0.0202	Patila Chanagouda S/o Chanabasanagouda 21
35	23	Private	Dry	0.0202	Maligera Chennaiah S/o Basavaraja , Maligera Ravikumara S/o Basavaraja 23

36	52	Private	Dry	0.0171	Gadada Danappa S/o Sangappa 52 / 1
37	52	Private	Dry	0.0031	Balegara Hurambi W/o Abdul Saba , Balegara Abida S/o Abdul Saba , Balegara Savida Ali S/o Abdul Dada , Balegara Sadath Ali S/o Abdul Saba 52 / 2
38	60	Private	Dry	0.0909	As per RTC 60
39	63	Private	Dry	0.039	Vani W/o Appanna Jambale , Deepa W/o Basavaraja Karamannanavara 63 / 1 A
40	63	Private	Dry	0.024	Khagade Purushothama S/o Jothappa 63 / 1 B / 1
41	63	Private	Dry	0.0175	Bagade urf Hebballi Rukminibai W/o Jothappa 63 / 1 C / 1
42	63	Private	Dry	0.086	Mirajakara Ananda W/o Venkatesha urf Thippanna Mirjakara Devaraja S/o Venkatesh urf Thippanna Mirajakara Nagarja S/o Venkatesh urf Thippanna Mirajakara Aruna S/o Venkatesh urf Thippanna Mirjakar Aravinda S/o Venkatesh urf Thippanna Mirjakar Meerabai W/o Venkatesh urf Thippanna 63 / 2
Village: Kajjari					
43	208	Private	Dry	0.0114	Devaragudda Guddappa S/o Marthandappa , Devaragudda Maradeppa S/o Marthandappa , Devaragudda Hanumanthappa S/o Marthandappa , Devaragudda Honnappa S/o Marthandappa , Devaragudda Mariyavva W/o Cholappa , Adina Shailavva W/o Gangappa , Kuriyavara Manjavva W/o Beerappa , Devaragudda Beerappa S/o Choolappa , Devaragudda Hanumanthappa S/o Cholappa , Doddamalappanavara Suma W/o Beerappa , 208 / 2 A + 2 B
44	208	Private	Dry	0.02	Devaragudda Guddappa S/o Marthandappa , Devaragudda Maradeppa S/o Marthandappa , Devaragudda Hanumanthappa S/o Marthandappa , Devaragudda Honnappa S/o Marthandappa , Devaragudda Mariyavva W/o Cholappa , Adina Shailavva W/o Gangappa , Kuriyavara Manjavva W/o Beerappa , Devaragudda Beerappa S/o Choolappa , Devaragudda Hanumanthappa S/o Cholappa , Doddamalappanavara Suma W/o Beerappa

					Kempannanavara Mallikarjunappa S/o Parameshwarappa Kempannanavara Sadashivappa S/o Parameshwarappa 208 / 2 C / 1 , 2 C / 2
45	208	Private	Dry	0.0696	As per RTC 208 / 3
	Village: Kakol				
46	02	Private	Dry	0.0164	Competent Authority for land Acquisition NHAI Dharwad 2 / 1 + 2
47	104	Private	Dry	0.0202	Suranagi Lilavathi W/o guddappa Suranagi Prashanth S/o Guddappa Suranagi Santhosha S/o guddappa Nimbaragi Anupama W/o Ravindar Niralagi Rajeshwari W/o Ashoka Beradara Manjula W/o Shankaragouda Totti Rekha W/o Somappa 104 / 2
48	178	Private	Dry	0.0202	Competent Authoirty for land acquisition N H 4 Dharwada Special Land Acquisition Officer N H A I Chitradurga unit Dharwad 178 / 1
49	178	Private	Dry	0.0202	Kannammanavara Mudukappa S/o Ningappa Kannammanavara kariyappa S/o Ningappa Kannammanavara Ningamma W/o Basappa Kannammanavara Mahadevappa S/o Basappa Shidaganala Shanthavva W/o Mylarappa Shidaganahala Pathavva W/o Hanumanthappa Kannammanavara Beerappa S/o Basappa kannammanavara Dilleppa S/o Basappa Karabasappanavara lakshmi W/o Ramappa 178 / 3
50	178	Private	Dry	0.0202	Kannammanavara Shanthavva W/o Guddappa Daivagna Shaymasundara S/o Venkatesh 178 / 2 B , 178 / 2 C
51	178	Private	Dry	0.0202	Sunkada Mallappa S/o Shivappa Kannammanavara Dilleppa S/o Kariyappa Kannammanavara Hcuhappa S/o kariyappa Kannammanavara Hegappa S/o Kariyappa Kannammanavara Shivappa S/o Kariyappa Kannmmanavara Hanumanthappa S/o Basappa Kannnammanavara Guddappa S/o Basappa Kannmmanavara Neelamma W/o Basappa Kannammanavara Hanumanthappa S/o Basappa Kannmmannavara Guddappa S/o

					Basappa 178 / 4 A , 178 / 4 / B 1 ,
52	178	Private	Dry	0.0202	Doddachikkannanavara Billeppa S/o Bharamappa Gazi Premakka W/o Eshwarappa Gazi Manjavva W/o Shekappa Doddachikkannanavara Nignavva W/o W/o Bharamappa Doddachikkannanavara Ningavva W/o Bharamappa Doddachikkannanavara Dilleppa S/o Bharamappa Gazi Premakka W/o Eshwarappa Gazi Manjavva W/o Shekappa Kannammanavara Basappa Ngappa Kannammanavara Mudukappa Nagappa Kannammanavara Kariyappa Nagappa 178 / 5 A, 178 / B
53	181	Private	Dry	0.005	Agasanahalli Neelappa S/o Ningappa 181 / 2
54	181	Private	Dry	0.005	Agasanahalli Chandrappa S/o Guddappa Agasanahalli Nijalingapa S/o Guddappa Agasanahalli Hanumanthappa S/o guddappa 181 / 3
55	182	Private	Dry	0.0202	Kenchanagowdra Honnamma W/o Chanabasanagouda Kenchanagowdra Kannagouda S/o Channabasanagouda Kenchanagoudra Puttanagouda S/o Channabasanagouda Kenchangoudra Ramanagoudra S/o Channabasanagouda 182
56	183	Private	Dry	0.0088	Special Land Acquisition Officer, N H A I Chitradurga 183 / 1 B
57	183	Private	Dry	0.011	Suvarnavva W/o Chanaveerappa Ballari 183 / 2 B
58	184	Private	Dry	0.0101	Javali Parvatheevva W/o Shankreppa Javali Shankrappa Shivangouda Jali Kallappa Shankreppa Javali Dyamangouda Shankreppa Shivunagoudra Puttappa Kallappa Agadi Savanthravva Shankrappa Rattihalli Karabasavva Panchappa Shivanagoudra Halamm W/o Bheemanagoudra Hosamani Sarojamma W/o Maleshwarappa Shivanagoudra Naganagouda S/o Bheemanagouda 184 / 1
59	184	Private	Dry	0.005	Javali urf Javalera urf Shivanagoudra Chandragouda S/o Shekaragouda urf Chandrashekarappa 184 / 3
60	185	Private	Dry	0.0202	Suvarnavva W/o Chanaveerappa

					Ballari 185 / 1
61	186	Private	Dry	0.0101	Patila Yashavanthagouda - Shivaputragouda 186 / 2
62	186	Private	Dry	0.0101	Patil Shivakumara - Yashavanthagouda 186 / 4
63	187	Private	Dry	0.0085	Patil urf Dyamanagouda Yashavanthagouda S/o Shivaputragouda 187 / 2
64	188	Private	Dry	0.0491	Mudukanagowdra Chanabasavva W/o Marabasanagowdra Mudukanagowdra Kalaveeragowda W/o Marabasanagouda Mudukanagowdra Veerabasanagouda W/o Chanabasanagowda 188
65	195	Private	Dry	0.0149	Agasanahalli Hanumanthappa S/o Ningappa 195 / 1
66	195	Private	Dry	0.0026	Agasanahalli Chikkappa S/o Bharamappa Agasanahalli Malleshappa S/o Bharamappa 195 / 2 + 3
67	197	Private	Dry	0.0032	Kammara Basavanneppa Shankrappa Kammara Ramachandrappa Shankrappa Kammara Shivanandappa Shankrappa Kammara urf Arkachari Shanthavva W/o Someshwarappa urf Somesharappa Badigeri urf Kammara Puttavva W/o Chiakkappa Kammara urf Arkachari Guddachari S/o someswarappa urf Someshwarappa Kammara urf Arkachari Basavaraja S/o Somesharappa urf Somesharappa Badigeri Rathnavva W/o Prabhu 197 / 4
68	197	Private	Dry	0.0069	Kammara Basavarajappa Shankrappa Kammara Ramachandrappa Shankrappa Kammara Shivanandappa Shankrappa Kammara urf Arkachari Shanthavva W/o Someshwarappa urf Someshrappa badigeri urf Kammara Puttavva W/o Chikkappa Kammara urf Arkachari Guddachari S/o someswarappa urf Someshwarappa Kammara urf Arkachari Basavarajaa S/o Someshwarappa urf Someshwarappa Badigeri Rathnavva W/o Prabhu Shwavarappa Basavarajappa Hemappa Shwararada Sureshappa Hemappa Shwarada Prakasha Hemappa Shwarada Malleshappa Hemappa Shwarada Rathnavva Hemappa Kammra

					Basavanneppa Shankarappa Kammra Ramachandrappa Shankrappa Kammra Shivanadappa Shankrappa Kammra urf Arrkachari Shanthavva W/o Somesharappa urf Somesharappa Badigeri urf Kammra Puttavva W/o chikkappa Kammara urf Arkacahri Guddachari S/o Somesharappa urf Somehwarappa Kammara urf Arkachari Basavarajappa S/o Somesharappa urf Somesharappa Badigeri Rathnavva W/o Prabhu 197 / 5 A, 197 / 5 B, 197 / 5 C
69	62	Private	Dry	0.0254	Byalahunasi Channabasappa Veerupakshappa Savanuru Gowramma Eshwarappa Savanuru Nagamma Shekarappa Salinhalli Jayashri Mahdevappa Uppna shanthamma Basavarappa Nagaraja Snaganabasappa Kasturamma Sangabasappa Asdara Sanganabasappa Shoba Sanganabasappa asadara Snaganabasappa Devendra sanganabasappa asadra sanganabasappa 62 / 1
70	62	Private	Dry	0.0352	Kudarihala Chandrashekarappa S/o Sannigappa, Kudarihala Chanabasappa S/o Sannigappa 62 / 2
71	62	Private	Dry	0.0101	Balahunasi Chanabasavva W/o Veeraprakashappa Gowravva W/o eshwarappa Nagavva W/o Shekarappa Jayasri W/o Mahadevappa Shanthavva W/o Basavarajappa Kudrihala Nagaraja S/o sanganabasappa Kudrihala Kasturevva D/o Sanganabasappa Kudrihala Shobha D/o Sanganabasappa Kudrihalal Dharmendra S/o Sanganabasappa 62 / 3
72	92	Private	Dry	0.1304	Mudukanagowdra Veeranagowda S/o Chanabasanagowda Mudukanagowdra Bharmanagowda S/o Chanabasanagowda Mudukanagowdr Kallanagowda S/o Chanabasanagowda Mudukanagowdra Chanabasavva W/o Marabasanagowda Mudukanagowdra Kalaveeragowda S/o Marabasanagowda 92 / 2 B 2
73	92	Private	Dry	0.1221	Goddemmi Basappa - Huchappa 92 / 2 A
74	93	Private	Dry	0.0052	Muttagi Mallikarjuna Chanabasappa Muttigi Siddappa Chanabasappa

					Muttagi Veerappa Murigeppa Muttagi Virupakshappa Murigeppa Muttagi Prabhakara Mutigeppa Muttigishettara Mruthunjayappa S/o Chandrashekarappa Mutigishettara Umesha S/o Chandrashekarappa Muttigishettara Hemeshappa S/o Chandrashekarappa 93 / 1
75	93	Private	Dry	0.015	kannagowdra Rajeshwari Shivanagowda Kannagowdra Sharathagowda Shivanagouda Muttagi Mallikarjuna Chanabasappa Muttagi Siddappa Chanabasappa Muttagi Veerappa Murigeppa Muttagi Virupakshappa Murigeppa Muttagi Prabhakara Murigeppa Muttigishettara Mrythunjappa S/o Chandrashekarappa Muttigishettara Umesha S/o Chandrashekarappa Muttigishettara hemeshappa S/o Chandrashekarappa 93 / 2 B / 2, 93 / 2 A
76	99	Private	Dry	0.0031	Holiyappanavara Mahadevappa Ningappa Holiyappanavara Biddadappa Hanumanthappa Holiyappanavara Thippeshappa S/o Neelappa Holiyappanavara Hanumanthappa S/o Neelappa Holiyappanavara Beerappa S/o Neelappa Kannammanavara Mahdevakka W/o Kariyappa Mudigowdra Paravva W/o Hanumanthappa Holiyappanavara urf Agasanahalli Halavva W/o Channabasappa Holiyappanavara urf Agasanahalli Savitha W/o Channabasappa Asadara tayi Halva Holiyappavavara urf Agasanahalli Mallppa S/o Channabasappa asadara tayi Halvva Holiyappanavara urf Agasanahalli Prashanth W/o Channabasappa asadara tayi Halvva Holiyannanavra Manjavva W/o Somappa Holiyappanavara Malatesh S/o Somappa asadara tayi Manjavva Holiyappanavara Guddappa S/o Somappa asadara tayi Manjavva Holiyappanavra Renuka W/o Somappa asadra tayi Manjavva Holiyappanavra Sudha S/o Somappa asadara tayi Manjavva Holiyappanavara Chikkappa S/o Guddappa Holiyappanavara Ramappa Guddapa holiyappanavara Honnavva W/o Ningappa Kariyavara Premakka W/o Shankrappa Hottiningannanavara Rekha W/o cholappa Holiyappnavora Yallavva D/o Ningappa Holiyappanavara Rathnavva W/o Ningappa asadara tayi Honnavva

					99 / 1 A, 99 / 1 B, 99 / C
77	99	Private	Dry	0.007	Special Land Acquisition Officer N H A I Chitradurga Unit Dharwad 99 / A
	Village: Kamadod				
78	10	Private	Dry / Non Agriculture	0.118	As per RTC 10
79	36	Private	Dry	0.0202	Patel Channagowda S/o Shivanagowda 36
80	63	Private	Dry	0.0321	Patel Valaji S/o Haraji Patel Veeraji S/o Haraji 63 / 1 A
81	63	Private	Dry	0.0624	Patel Valaji S/o Haraji Patel Veeraji S/o Haraji 63 / 1 B
82	63	Private	Dry	0.028	Patel Hanasabena W/o Valaji and As per RTC 63 / 2
83	91	Private	Dry	0.0364	Irani Abdul Karimasaba - Abdul Jabbarakhana 91 / 1 B
84	91	Private	Dry	0.028	Suresh C T Sri Adyakshru Paripurna Trust (R) Ranebennur 91 / 2 A
85	91	Private	Dry	0.0156	Doddamani Savithri W/o Hanumanthappa 91 / 2 B
86	91	Private	Dry	0.035	Doddamani urf Banakara Siddesh S/o Mahadevappa Doddamani urf Banakra Malleshappa S/o shivappa Doddamni urf Banakara Revanappa S/o Shivappa Doddamani urf Banakara Basavaraja S/o shivappa Doddamani urf Banakara Thirakappa Doddamani urf Banakra Gowramma Shivappa Goudra Mallamma W/o Eranagowda 91 / 8
87	92	Private	Dry	0.0606	Sarkara , Melmaligi Siddappa S/o Jatteppa , Melmaligi Manjappa S/o Jatteppa , Kallisalu Shanthamma W/o Karabasappa , Kallisala Hanumanthappa S/o Karabasappa , Maligemamma W/o Nagappa , Gangamma W/o Pakkappa , Anasuyamma W/o Gadigeppa , Karura Chollappa , S/o Ningappa , Karua Nagaraja S/o Chollappa , Kajari Ranuakavva S/o Ningappa , Kambali Choudavva W/o Suresha , Huchallavara Pushpa W/o Kariyappa , Byadagi Krishnappa S/o Ramappa , Krishnappa Ramappa Byadagi Koravara Gangappa S/o Gangappa ,

					92 / 2+3+4+5A+B/1, 2+3+4+5A+B/2, 2+3+4+5+6/C1, 2+3+4+5+6/C2, 2+3+4+5+6/C3, 2+3+4+5+6A+6B/2B,
88	97	Private	Dry	0.0707	Patel Shivalinganagowda S/o Mahadevagowda 97 / 4
	Village: Karur				
89	109	Private	Dry	0.0077	Hiregoudra Mallesha S/o Hanumagouda 109 / 1
90	109	Private	Dry	0.0025	Hiregoudra Nagappa S/o Kuruvatteppa 109 / 2
91	109	Private	Dry	0.0085	Havanura Honnapa Goudappa Havanuru Virupakshappa goudappa Havanuru Basappa Goudappa 109 / 3
92	109	Private	Dry	0.005	J S Raju S/o J Siddappa 190 / 4
93	109	Private	Dry	0.0025	Hiregoudra Nagappa S/o Kuruvatteppa 109 / 5
94	125	Private	Dry	0.0552	Kolati Hariyappa - Sannahanumanthappa 125 / 1
95	125	Private	Dry	0.0884	Kolati Shivappa S/o Hanumanthappa , B G Ramalingesha , B G Basappa Sa. Harihar 125 / 2
96	131	Private	Dry	0.022	Srikanth S/o Shankarappa Onggannanavara 131 / 3
97	157	Private	Dry	0.032825	Kannagoudra Ramanagouda - Basavanthappa 157 / 1 A + B1 / 1
98	157	Private	Dry	0.037875	Chalageri Mallavva W/o Hanumanthappa Horakeri Shanthavva W/o Dyavappa Dibbada Nagamma W/o Shankrappa Marihonnapanavara Honnamma W/o Akkappa Horakeri Honnappa S/o Dyavappa Horakeri Basappa S/o Dyavappa Horakeri Surappa S/o Dyavappa Horakeri Puttappa S/o Dyavappa Horakerappa hariyappa S/o Hanumathappa Horakerappa Puttappa S/o Hariyappa 157 / 2 A , 2 B , 2 C
99	163	Private	Dry	0.0101	Bennura Manjappa S/o Bheemappa (Madya) , Banakara Jagadisha S/o Basappa , Kamatada Ajappa S/o Ningappa , Kamatada Revaneppa s/o Ningappa , Hirebidari Guttevva W/o Honnappa , Karigara Anandappa S/o Ningappa , Manakura Rangamma

					W/o Shekappa , Kuriyavara Lalitha W/o Shivappa , Mankura Malathesha S/o Shekappa , Nirmala W/o Pradipa G. K , Manakura Nijaguna S/o Shekappa , Manakura Jayamma S/o Shekappa , Manakura Manjunatha S/o Shekappa , Manakura Indraja D/o Shekappa 163
100	171	Private	Dry	0.0162	Kolati Hariyappa Sannahanumappa 171 A / 2 B / 1
101	171	Private	Dry	0.0558	Ramco Industries Karur , Mudadyavannanavara Basavanthappa - Honnappa 171 A / 1 B / 1 A , 1 B / 2
102	171	Private	Dry	0.0162	Praveena S/o Ramanagouda Ramanagoudra Girisha S/o Ramanagouda Ramanagoudra 171 A / 2 B / 2
103	209	Private	Dry	0.09	Ramco Industries Limited Karur, Indumathi W/o H Vishwanatha , Shreya S/o H Vishwanatha , Indumathi W/o H Vishwanatha , Shreya S/o H Vishwanatha , Kannala Manjunatha - Ningappa , Kannala Nagappa - Ningappa , Ramco Industries Limited Karur , Indumathi W/o H Vishwanatha , Shreya S/o H Vishwanatha , Shettara Sharanappa S/o Shantaveerappa , Shettara Erappa S/o Shantaveerappa , Karur V C Chairman , Director Helth and falimy Bangalore Vaidyadikari Prathamika Arogya Gataka Karur Ramco Industries Limited Karura Sarathi Gangamma - Dilleppa , Chairman G M P Society Karur 209 A / 1 B , 4 , 5 , 1 B / 2 , 3 , 3 B , 2 + 6 A - P 1 , 1 D , 2 + 6 A - P 2 , 6 B , 6 B / 2 , 209B/*
104	210	Private	Dry	0.0121	Ramco Industries Limited Karur Kurudappanavara Kenchappa S/o Ramachandrappa Kolaji Shanthappa S/o Ningappa Kolaji Shivajappa S/o ningappa Malagi Ashoka S/o Hanumanthappa Kolaji Guddappa S/o Ningappa Surve Ravi S/o Baspapa Anadi Basavaraja S/o Hanumanthappa Kolacheri hanumanthappa S/o Shivajjappa Talavar urf Hosamani Somappa S/o Karehanumappa Talavar urf Hosamani Haldappa S/o Karehanumappa 210 / 1 , 1 A / 1 , 1 A / 2 ,
105	210	Private	Dry	0.0081	Olekara urf Talavara Somappa - Bheemappa 210 / 17

106	210	Private	Dry	0.0102	Talavara Jayappa S/o Sannahanumappa , Talavara Sannahnumappa - tayi Dyamavva 210 / 19 - P 1 , 19 - P 2 ,
107	210	Private	Dry	0.0119	Talavara urf Hunasikatte Somappa - Hanumappa , Talavara urf Hunasikatte Somappa - Hanumappa , 210 / 20 / P 1 , 20 / P 2
108	210	Private	Dry	0.0112	Talavara urf Olekara Haladappa - Duragappa 210 / 22
109	211	Private	Dry	0.0297	Gowdara Ganeshappa - Mallappa , Gopinatha - Lakshmana Naika 211 / 1 B / 2 - P 1 , 1 B / 2 - P 2 ,
110	211	Private	Dry	0.0261	Ramco Industries Limited Karur , Ramco Industries Limited Karur , 211 / 1 C / 2 - P 1 , 1 C / 2 - P 2
111	211	Private	Dry	0.0342	Gowdara Ganeshappa - Mallappa , Gopinatha - Lakshmana Naika 211 / 2 B / 2 - P 1 , 2 B / 2 - P 2
Village: Kunabev					
112	122	Private	Dry	0.0502	Hullugavalige Kaidiriside 122
Village: Magod					
113	185 / 3	Private	Dry	0.0404	Mudigoudra Shivalinganagouda S/o Shivappa Mudigoudra Hanumanthappa S/o Shivappa Mudigoudra channabasanagouda S/o Shivappa Kirageri Karabasappa Basalingappa Kirageri Revanappa Basalingappa Kirageri Channabasappa Balingappa Asadara tayi Gouravva Kirageri Shambulingappa Basalingappa Asadara tayi Gouravva Kirageri Gouravva Basalingappa 185 / 3
Village: Ranibennur (Rural)					
114	27	Private	Dry	0.0404	Jadava Sharadamma Wo Ramappa Bagavathi ShakunthalaW/o Parashuramappa Patila Renuka W/o dharmagouda Jadav Manjunatha S/o Ramappa Jadava Ashoka S/o Ramappa Jadava Nagendrappa S/o Ramappa Pavara Shantha W/o Megharaja Bagavathi Kusuma W/o Nagendrappa and as per R T C 27 / 5 , 1 B / 4
115	29	Private	Dry	0.04545	Hullubanni Thirukappa Shiddappa, Hullabanni Shekappa Shiddappa, 29 / 1
116	29	Private	Dry	0.042925	Huggi Basavanneppa - Malkappa 29 / 2
117	327 & 328	Private	Dry	0.1515	Makanura Karabasappa -

					Mahadevappa , Makanura Veerabhadrapa - Channabasappa , Makanura Channappa S/o Chanabasappa , Makanura Verupakshappa S/o Chanabasappa , Makanura Neelavva S/o Shivarudrapa , Kodihalli Sunanda W/o Nagaraja , Marigoudara Saroja urf Ruapa W/o Karegouda , Makanura Mahadevappa - Karabasappa , Kakola Hemaiah - Mallaiah , Kakola Kotraiah - Mallaiah Kakola Basavarajaiah Malingappa , Kakola Shekaiah Malingappa Kakola Hemaiah Mallaiah , Kakola Kotraiah Mallaiah Kakola Basavarajaiah Malingappa , Kakola Shekaiah Malingappa , 328 / 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
118	363	Private	Dry	0.0808	As per RTC and Malavalli Malkappa S/o Mallappa Malavalli Shivappa S/o Mallappa Malavalli Basavarajappa S/o Mallappa Malavalli Shantha W/o Parvathappa Malavalli Malkappa S/o Mallappa Malavalli Shivappa S/o Mallappa Malavalli Basavaraja S/o Mallappa Malavalli Shantha W/o Parvathappa 363 / 1 + 2 + 4
119	874	Private	Dry	0.1919	Gulannanavara Basappa - Sannappa 874
120	874	Private	Dry	0.0404	Channagoudra Chanabasappa Basappa Gouda shivannanavara Nagappa S/o Shiddappa Gouda Shivannanavara Mahadevappa S/o Shiddappa Channagoudra Nanjappa Basappa Gulannanavara Basappa Sannappa 874
Village: Waderayanahalli					
121	17	Private	Dry	0.0101	Goudra Rudragouda S/o Basappa , 17 / 1
122	17	Private	Dry	0.0101	Goudra Rudragouda W/o Basappa Goudra Basanagouda S/oBasappagoudra Goudra Sannagouda S/o Basappagoudra A Ku Mya Rudragouda Goudra prabhugouda S/o basappa Goudra A Ku Mya Rudragouda Goudra Basangoudra S/o Basppagoudra A Ku Mya Rudragouda Goudra Naganagoudra S/o Basappagoudra Karnataka Neeravari Nigama 17 / 2
123	18	Private	Dry	0.0048	Hiremattura urf Donagara Durugappa S/o Pakkirappa 18 / 1

124	18	Private	Dry	0.0037	Hiremattura urf Donagara Shankravva W/o Shiddappa , Hiremattura urf Donagara Prakasha S/o Shiddappa 18 / 2
125	18	Private	Dry	0.0032	Hiremattura urf Donagara Mupaneppa S/o Pakkirappa 18 / 3
126	18	Private	Dry	0.0048	Hiremattura urf Donagara Hanumanthappa S/o Pakkirappa 18 / 4
127	19	Private	Dry	0.005	Myagalageri Nagaraja S/o Basappa 19 / 3
128	19	Private	Dry	0.0057	Siddappa S/o Nagappa Banakara , Hanumanthappa S/o Nagappa Banakara 19 / 4
129	19	Private	Dry	0.0095	Tavaragondi Chennamma W/o Karabasappa 19 / 5
130	20	Private	Dry	0.0047	Goudra Revanasiddappa Kuravatteppa Goudra Basavaraja Kuruvatteppa Goudra Vinodamma W/o Channabasappa Anjera Kusuma Jagadisha Budanuru Rudramma Ramesha Pujara Savithra Paramesha Heddari Sakamma Annappa Pujara Shilpa Jadadisha Goudra Karabasappa Chanabasappa Goudra Sharanappa Channabasappa Goudra Savitharamma Shivappa Goudraa Anitha Shivappa Goudra Anu Shivappa 20 / 1
131	20	Private	Dry	0.0185	Goudra Rudragouda S/o Basappa Goudra , Goudra Naganagouda S/o Basappa Goudra , Goudra Sannagouda S/o Basappagoudra , Goudra Basappagouda S/o Basappagoudra , Goudra Prabhugouda S/o Basappagoudra , Goudra Bsavarajagouda S/o Basappa Goudra 20 / 2
132	20	Private	Dry	0.0132	Goudra Shankrappa S/o Gangappa , Goudra Ganeshappa S/o Gangappa 20 / 3
133	21	Private	Dry	0.0606	Goudra Mahadevappa S/o Basappa , Goudra Mallappa S/o Basappa , Goudra Shivanandappa S/o Basappa , Goudra Rudrappa S/o Basappa , 21 / 4+5 C / 2
134	22	Private	Dry	0.0045	Prakash S/ o Nagarajappa urf Nagendrappa Nalavagala urf Channanagouda Bhu pa 22 / 2

135	22	Private	Dry	0.003	Prakash S/ o Nagarajappa urf Nagendrappa Nalavagala urf Channanagouda Bhu pa 22 / 3
136	22	Private	Dry	0.0038	Chandragoudra Shankrappa Banakara 22 / 4
137	22	Private	Dry	0.0068	Gangadara Shankrappa Banakara 22 / 5
138	29	Private	Dry	0.0707	As per RTC 29
139	31	Private	Dry	0.0148	Pujara Rajendra S/o Lakshmana , Pujara Ravindra S/o Lakshmana , Latha Lakshmana Pujara - urf Latha Nayaka , Bharathada Rashtrapathigala Paravagi Sriutha Shekaramahameda - Jamalasaba 31 / 1 , 2
140	32	Private	Dry	0.0104	Mudadevannanavara Ravindranatha S/o Basavanthappa , Mudadevannanavara Ravindranatha S/o Basavanthappa , Mudadevannanavara Chandrakantha S/o Basavanthappa , Mudadevannanavara Prabhakara S/o Basavanthappa , Mudadevannanavara Ravindranatha - Basavanthappa , Mudadevannanavara Chandrakantha - Basavanthappa , 32 / 1 , 2 B , 2 X - 1
			TOTAL	12.367925	

[F. No. NHAI/Six lane CTA-HAV/LA/Karnataka/Notif./3a/PIU-Chitradurga/NH-4/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.